

विकसित भारत के संकल्प में महत्वपूर्ण भागीदार बनेगा हरियाणा : नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में राज्य के आगामी बजट को लेकर इंडस्ट्री व मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित हितधारकों से की पूर्व बजट परामर्श बैठक

मुख्यमंत्री ने बैठक में पहुंचे प्रतिनिधियों के सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और आगामी बजट में आवश्यक विषयों पर विचार करने का आश्वासन भी दिया

समाचार गेट/ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक उन्नति में औद्योगिक संस्थानों का सहयोग हरियाणा की समृद्धि एवं प्रगति के लिए समावेशी दृष्टिकोण की प्रतिबद्धता को दोहराता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

की वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है उसमें हरियाणा की महत्वपूर्ण भागीदारी रहेगी। मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इंडस्ट्री व मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित हितधारकों के साथ आयोजित पूर्व बजट परामर्श बैठक (प्री बजट कंसल्टेशन) की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उद्योग जगत एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने आगामी बजट के लिए अपने सुझाव रखे। बैठक में प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह, सोहना के विधायक श्री तेजपाल तंवर व गुरुग्राम के विधायक श्री मुकेश शर्मा



भी मौजूद रहे। नायब सिंह सैनी ने पूर्व बजट परामर्श बैठक में पहुंचे प्रतिनिधियों के सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और आगामी बजट में आवश्यक विषयों पर विचार करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने बताया कि आगामी बजट में वर्तमान आवश्यकताओं के

साथ साथ दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के सार्थक प्रयास किए जाएंगे। आगामी बजट हमारी सामूहिक महत्वाकांक्षाओं व प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब है। आगामी बजट की तैयारियों के लिए यह आवश्यक है कि हम समाज के सभी वर्गों के साथ संवाद करें ताकि

हरियाणा के प्रत्येक नागरिक की जरूरतों व सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक सकारात्मक प्रयास किए जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा ने कृषि, उद्योग, शिक्षा का आधारभूत संरचना व प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन, युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाने एवं समाज कल्याण के लिए आप-आप के रचनात्मक सुझावों को प्राथमिकता देते हुए आगामी बजट में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उन्होंने प्रतिनिधियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आवश्यक सुधार को लेकर रखे गए सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भी आश्वासन दिया।

बजट के लिए ऑनलाइन भी दे सकते हैं सुझाव : राजेश खुल्लर
बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, जिनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है, ने इस बार बजट के लिए एक नई पहल की है। हरियाणा के आगामी बजट के लिए इस बार प्रदेश के साथ-साथ अन्य नागरिक भी ऑनलाइन माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि <https://bamsharyana.nic.in> पोर्टल के माध्यम सेक्टर व सब सेक्टर श्रेणी में जाकर अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से अब तक एक हजार से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं।

पारामर्श बैठक के माध्यम से पूर्व में भी अच्छे सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन्हीं सुझावों के आधार पर हरहित स्टोर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्टैम लेब, सुपर 30 जैसे सफल कार्यक्रम बनाए गए। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव श्री डी सुरेश सहित नैसकॉम हीरो मोटोकॉर्प, आईएमटी मानेसर एसोसिएशन, फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जूआईईई गुरुग्राम, मार्स लिमिटेड, रिटायर्स लिमिटेड, मेदांता मेंडिसिटी, रेवाडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्रेडाई, नरेडको, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सहित राज्य में कार्यरत विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

आईएमए हरियाणा की प्रादेशिक स्तर की कार्यकारिणी सभा एवं वार्षिक सम्मेलन सम्पन्न



समाचार गेट/संजय शर्मा
फरीदाबाद। आईएमए हरियाणा की कार्यकारिणी सभा का आयोजन ऐतिहासिक राजा नाहर सिंह पैलेस में आईएमए फरीदाबाद के आह्वान पर किया गया। इस सभा की अध्यक्षता आईएमए हरियाणा के उपाध्यक्ष (2025) डॉक्टर संदीप कालरा ने की। उन्होंने बताया कि आज डॉक्टरों को एकजुट होकर रहने की जरूरत है और आपसी भाईचारे को बनाए रखना होगा ताकि शासन और प्रशासन को

अपनी बात रखने में कोई दिक्कत न हो। मरीजों के साथ हमें अपने सम्बन्ध अच्छे रखने होंगे। डॉ प्रताप सिंह कवर (वाइस चेयरमैन इलेक्शन कमीशन) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सभी निर्वाचित सदस्यों को बधाई दी। इस अवसर पर डॉक्टर ड्यूक जसपाल (निर्वाचित प्रधान 2025) ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रादेशिक कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर शैलेश तोमर (कोषाध्यक्ष) डॉ रीना गर्ग (सह सचिव) डॉ प्रमोद

बंसल (चेयरमैन फाइनेंस कमेटी), सेंट्रल कमेटी के सदस्य डॉ एस एस वर्मा, डॉ डीएस जसपाल, डॉ सतीश चुग, डॉ राज सरदाना, डॉ अनिल गोयल एवं डॉ अनिल मलिक, डॉ नरेश ज़िंदल ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर डॉ अनिल दुडेजा, डॉ बीरेन्द्र सिंह, डॉ मंजु गोयल, डॉ मिस्रज बंसल विशेष रूप से उपस्थित रहे।

गुप्ता (प्रधान) डॉ कामना बखुशी (उपाध्यक्ष) एवं डॉ कविता सिरौही (उपाध्यक्ष) एवं डॉ दीपा गुप्ता ने हरियाणा के विभिन्न शहरों से आए हुए गणमान्य अतिथियों का स्वागत दुशाला पहनाकर किया। मंच संचालन डॉ राजेश जेटली एवं डॉ अनिल गोयल ने संयुक्त तौर पर किया। कार्यक्रम के अंत में आईएमए फरीदाबाद के अध्यक्ष डॉ दिनेश गुप्ता ने आगे हुए सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया एवं उनके प्रति आभार व्यक्त किया

किसानों की मांगों से पल्ला झाड़कर राज्य सरकारों के पाले में गेद डालना चाहती केन्द्र सरकार : कुमारी सैलजा

कहा- एमएसपी निर्धारित करना केन्द्र की जिम्मेदारी, केन्द्र ही देगा एमएसपी को कानूनी दर्जा

समाचार गेट/ब्यूरो
चंडीगढ़। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि केन्द्र सरकार शुरू से किसानों को गुमराह करती आ रही है। किसानों की मांगों पर अगर उसने गंभीरता से विचार किया होता तो आज देश के अन्नदाता को मांगों को लेकर धरने और अनशन पर न बैठना पड़ता। उन्होंने कहा कि एमएसपी का निर्धारण करना केन्द्र की ही जिम्मेदारी होती है, वहीं एमएसपी को कानूनी दर्जा दे सकती है, केन्द्र अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता, एमएसपी मामले में केन्द्र राज्य सरकारों को पाले में गेद डालकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहती है पर किसान इस बार चुप बैठने वाला नहीं हैं।



मौड़िया को जारी बयान में सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान, किसान कल्याण और एमएसपी के निर्धारण में केन्द्र की अहम भूमिका होती है, किसान समय समय पर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करता आया है और आज भी वह एमएसपी को कानूनी दर्जा दिलाने के लिए आंदोलनरत है पर केन्द्र सरकार है कि उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। जब आंदोलन बड़ा रूप लेता है तो केन्द्र सरकार झुटे आश्वासन देकर

उन्होंने कहा कि अगस्त माह में हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की थी, इतना ही नहीं प्रदेश सरकार ने 24 फसलों की खरीद एमएसपी को लेकर 19 दिसंबर को अधिसूचना भी जारी की। जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें है अब कांग्रेस शासित राज्यों पर उंगली उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार जिन 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की बात कर रही है उनमें से अधिकतर फसल हरियाणा में होती ही नहीं है, सरकार खुद ही अपना गुणगान कर अपनी पीठ स्वयं ही थपथपा रही है। प्रदेश में और केन्द्र में भाजपा की सरकारें है फिर भी दोनों सरकारें अलग अलग राय अलाप रही है। सच तो यह है कि एमएसपी के नाम पर केन्द्र किसानों को उलझा रहा है।


बीजेपी सरकार ने किया प्रदेश के शिक्षा तंत्र का बंटोधार : हुड्डा

स्कूलों में स्टाफ, बिजली, पानी, टॉयलेट और बैंच तक नहीं दे पा रही सरकार- हुड्डा

सरकारी स्कूलों को बंद कर एससी-ओबीसी व गरीबों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है बीजेपी- हुड्डा

समाचार गेट/ब्यूरो
चंडीगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी ने हरियाणा के सरकारी शिक्षा तंत्र का बंटोधार कर दिया है। लगातार सरकार ऐसी नीतियां बना रही है, जिसके चलते लगातार शिक्षा निजी हाथों में जा रही है। लगातार सरकारी शिक्षण संस्थानों से विद्यार्थियों की संख्या घट रही है और उनपर ताले लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले साल के मुकाबले इसबार भी 27,000 कम दाखिले हुए हैं। जबकि अगर सरकार की शिक्षा नीति बेहतर होती तो इन दाखिलों में इजाफा होना चाहिए था।

एक सुविधा और शिक्षा से वंचित करना चाहती है। इसीलिए नए स्कूल बनाना तो दूर, बीजेपी सरकार पहले से स्थापित स्कूलों में बिजली, पानी, टॉयलेट और बैठने के लिए बैंच तक मुहैया नहीं करवा रही है। यही वजह है कि अभिभावकों का सरकारी स्कूलों से भरोसा उठता जा रहा है और सरकार शिक्षा तंत्र को धीरे-धीरे प्लानिंग के तहत निजी हाथों में सौंप रही है। स्कूलों की खस्ता हालत से नाराज हाई कोर्ट ने पिछले दिनों बीजेपी-जेजेपी सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। स्कूलों में टीचर्स की भी मांग है कि शिक्षा में टीचर्स की भारी कमी है और ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि 10 साल से सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी ने स्कूलों की हालत सुधारने के लिए क्या किया? बीजेपी ने सत्ता में आते ही टीचर्स और खासकर जेबीटी टीचर्स की भर्तियां क्यों बंद कर दी? इस सरकार ने 10 साल में अब तक एक भी जेबीटी की भर्ती क्यों नहीं की?



स्कूलों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने के लिए बाकायदा नीति बनाई है। सरकार का कहना है कि जो बच्चे सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट में जाएंगे, उन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यहां तक कि प्राइवेट स्कूलों को भी सरकार द्वारा सरकारी स्कूल गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बीजेपी सरकार द्वारा हाई कोर्ट में दिए गए हलफनामे से पता चलता है कि आज हरियाणा के 131 सरकारी स्कूलों में पीने का पानी तक नहीं है। 236 स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया। हर घर शौचालय का नारा देने वाली सरकार ने 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए एक भी शौचालय नहीं बनाया। 1047 स्कूलों में तो लड़कों के लिए भी शौचालय नहीं है। छात्रों के लिए स्कूलों में 8240 और क्लासरूम की जरूरत है। यही वजह है कि सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हुड्डा का कहना है कि स्कूल ही नहीं, प्रदेश कॉलेज व विश्वविद्यालयों की स्थिति बेहद चिंतनीय बनी हुई है। प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं की हालत पर आई रिपोर्ट में पता चलता है कि प्रदेश के स्कूलों में 26000 से ज्यादा टीचर्स तो कॉलेज में 4738 सहायक प्रोफेसरों के पद

खाली पड़े हुए हैं। कॉलेजों में भी करीब 1 लाख यूजी तो 19,000 पीजी की सीटें खाली पड़ी हुई हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि प्रदेश सरकार शिक्षा पर जीडीपी का मद्दत 2% खर्च करती है, जबकि नई शिक्षा नीति 6% खर्च करने की सिफारिश करती है। जबकि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में जमकर विकास हुआ था। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए इस क्षेत्र पर खास ध्यान दिया था। इसलिए कांग्रेस सरकार ने महेंद्रगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनवाया, 12 नए सरकारी विश्वविद्यालय बनवाए, 154 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज, 56 नए आईटीआई, 4 नए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोले। बाबा सबूब अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई। प्रदेश में आईआईएम, आईआईटी एक्सपेंशन, टिपल आईटी कैम्प जैसे राष्ट्रीय स्तर के दर्जनभर संस्थान स्थापित करवाए। साथ ही राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी सोनीपत में बनवाई, जिसमें देश की कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी बनी हैं। कांग्रेस सरकार के दौरान जेबीटी, 25000 टीजीटी-पीजीटी, स्कूल स्टाफ, 50000 यूनिवर्सिटी, इंसट्रुट्यूट स्टाफ समेत शिक्षा विभाग में 1 लाख से अधिक नौकरियों दी थीं। जबकि बीजेपी ने पूरे कार्यकाल में एक भी जेबीटी भर्ती नहीं की। ना ही हरियाणा में कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या कोई बड़ा शिक्षण संस्थान स्थापित किया। यहां तक कि बीजेपी के पास दिखाने लायक खुद के बनाए दर्जनभर स्कूल भी नहीं मिलेंगे।

विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार

समाचार गेट/ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्णलाल पंवार ने अपनी स्वयं की इसराना (पानीपत) विधानसभा के क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर लगने वाले लोहे के बेंच, हैंडपंप और वाटर कूलर में किए गए घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर इसराना के बीडीपीओ सहित लेखाकार, सहायक और दो (कनिष्ठ अभियंता)जैड को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। जिस पर संज्ञान लेते हुए पंचायत विभाग के निदेशक ने उन्हें तुरंत प्रभाव से निर्लंबित कर दिया है। विकास एवं पंचायत विभाग में यह भ्रष्टाचार पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि ब्लाक समिति इसराना के चेयरमैन हरपाल मलिक ने उन्हें इस बारे में शिकायत दी थी कि विभाग के बीडीपीओ सहित उक्त कर्मचारियों ने विकास कार्यों में अनियमितताएं बरती हैं। उनके संज्ञान में यह मामला आने पर इसकी जांच करवाई गई और जांच में पता चला कि सार्वजनिक स्थानों पर लगने वाले लाइवों के लोहे के बेंच, आम जन को पीने का पानी मुहैया करने के लिए लगने वाले हैंड पंप और वाटर कूलर लगाने में अनियमितता पाई गई हैं। उन्होंने बताया कि यह संभवतः तीन से चार करोड़ रुपए का घोटाला हो सकता है जिसकी जांच अभी और आगामी दिनों में की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन आरोपियों को निर्लंबित किया गया है उनमें इसराना के बीडीपीओ विवेक कुमार सहित दो जैड, एक अकाउंटेंट और एक सहायक को निर्लंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले के संज्ञान में आने पर उन्होंने इसकी छानबीन करवाई और स्वयं इन आरोपियों ने करीब 23

लाख 85 हजार के गबन को स्वीकार भी किया है। जब इन आरोपियों को इस बात का पता चला तो इन्होंने करीब 23 लाख रुपए से किसी व्यक्ति से मंत्री कृष्ण

लाल पंवार ने स्वयं बात कर उसे ऐसा करने के लिए मना किया और यह पूरा मामला डिप्टी कमिश्नर के संज्ञान में डाला गया जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने तुरंत प्रभाव से मंत्री कृष्ण लाल पंवार के आदेशों पर उक्त 23 लाख रुपए की रिकवरी जिला परिषद के सीईओ के माध्यम से खाते में जमा करवाने के लिए कही है। विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि विभाग में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। यह भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ी कार्यवाही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के मामले मिलने पर जांच की जाएगी और किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा।

लाल पंवार ने स्वयं बात कर उसे ऐसा करने के लिए मना किया और यह पूरा मामला डिप्टी कमिश्नर के संज्ञान में डाला गया जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने तुरंत प्रभाव से मंत्री कृष्ण लाल पंवार के आदेशों पर उक्त 23 लाख रुपए की रिकवरी जिला परिषद के सीईओ के माध्यम से खाते में जमा करवाने के लिए कही है। विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि विभाग में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। यह भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ी कार्यवाही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के मामले मिलने पर जांच की जाएगी और किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा।

हुक्का बार पर रेड, तंबाकू नियंत्रण कानून कोपटा के तहत मुकदमा दर्ज

समाचार गेट/सुमित गोयल
फरीदाबाद। 1 जनवरी को थाना एनआईटी की टीम को गस्त के दौरान अपने गुप्त सूत्रों से टाउन नंबर 5 में एक हुक्का बार चलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने टाउन टाउन कर्फे एनआईटी 5 में रेड की। जहां पर प्रतिबंधित हुक्का सर्व किया जा रहा था। पुलिस द्वारा मौके से प्रतिबंधित 4 हुक्का व डिब्बे तंबाकू जब्त किया गया है। मौका से महेश सिंह वासी कृष्णा नगर सेक्टर 20 फ़रफ़कोर्ट नगर फरीदाबाद के खिलाफ तंबाकू नियंत्रण कानून अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके मामले में कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है।



प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक टोल फ्री नम्बरों की सूची

सीएम शिकायत पोर्टल	181
विद्युत सेवा	1912
पशु सेवा	1962
पुलिस सेवा	112, 100
अग्नि सेवा	101
एमबुलेंस सेवा	102
यातायात पुलिस	103
आपदा प्रबंधन	108
चाइल्ड लाइन	1098
रेलवे पृष्ठताछ	139
भ्रष्टाचार विरोधी	1031
रेल दुर्घटना	1072
सड़क दुर्घटना	1073
सी एम सहायता लाइन	1076
क्राइम सटायर	1090
महिला सहायता लाइन	1091
पृथ्वी भूकम्प	1092
बाल शोषण सहायता	1098
किसान काल सेक्टर	1551
नागरिक काल सेक्टर	155300
ब्लड बैंक	948004444

अपनी शादी, जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ की फोटो हमें भेजें।
नोट: मेल में नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखें।
samachargate@gmail.com

मोटूका के स्थान पर कहीं और कूड़ा प्लांट की संभावना तलाशें अधिकारी : राजेश नागर

मंत्री राजेश नागर ने मोटूका में धरने पर बैठे लोगों को दिखाई एनटीपीसी की प्रजेंटेशन, सहमति नहीं बनने पर कहीं और संभावना तलाशने के लिए निर्देश

समाचार गेट/संजय शर्मा फरीदाबाद। मंत्री राजेश नागर ने आज मोटूका में कूड़ा प्लांट के विरोध में धरनारत लोगों के साथ मुलाकात की और एनटीपीसी एवं निगम अधिकारियों के साथ एक प्रजेंटेशन दिखाई। लेकिन लोगों ने अपनी सहमति नहीं प्रदान की जिस पर नागर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह प्लांट लगाने के लिए कहीं और संभावना तलाशें।

मंत्री राजेश नागर के साथ पहुंचे एनटीपीसी एवं निगम अधिकारियों



ने लोगों को फिल्म के जरिए बताया कि किस प्रकार बिना प्रदूषण के कोयला बनाया जाएगा। इससे किसी प्रकार स्थानीय लोगों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ग्रामीणों ने सिर से मामले को नकार दिया।

इस पर मंत्री राजेश नागर ने कहा कि अधिकारी अन्य जगहों पर भी प्लांट बनाने की संभावना देखेंगे।

मंत्री राजेश नागर ने कहा कि यदि ग्रामीण नहीं चाहते तो मोटूका में

प्लांट नहीं बनाया जाएगा। हम जनता को किसी प्रकार से समस्या नहीं आने देंगे। श्री नागर ने बताया कि हम जनता के साथ हैं। जनता के हित के लिए हर संभव काम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनहित में निर्णय लेने के लिए दिल में बड़ी दया रखते हैं। मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जनहित में निर्णय होगा। अधिकारियों ने भी बताया कि अगर

कहीं और अनुकूल जमीन पाई गई तो वहां प्लांट लगाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

इस अवसर पर नगर निगम फरीदाबाद के संयुक्त आयुक्त गौरव अंतिल, संयुक्त आयुक्त द्विजा, एनटीपीसी जीएम अमित कुलश्रेष्ठ, इन्चार्ज प्लांट एजीएम विनय मलिक, निगम एसई ओमबीर, एक्सईएन पदम भूषण, एसटीपी डीएस डिल्लो आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

सभी सड़क मार्गों से अतिक्रमण हटाया जाए व अवैध कट बंद हों : उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा



समाचार गेट/अनिल मोहनियां नूहा। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जिला की सीमा से गुजर रहे राज्य व नेशनल हाइवे व अन्य सड़क मार्गों पर अतिक्रमण, सामान, अवैध पार्किंग आदि को तुरंत हटवाया जाए व अवैध कट भी तुरंत बंद करवाए जाएं, ताकि सड़क दुर्घटनाओं जैसे मामलों में रोक लगनी संभव हो। उपायुक्त वीरवार को लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हाल में जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के तहत योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए आमजन को जागरूक करने की दिशा में अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। सभी मुख्य सड़कों पर प्रवेश व निकास चार्ज पर रोड मार्किंग, सेफ्टी डिवाइस जैसे रोड स्टैंड्स, कैट्स आई बनाए जाएं।

सभी मुख्य सड़कों, राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर बने अवैध कटों को तुरंत बंद कराया जाए। अगर कोई व्यक्ति इन कटों को पुनः खोलता है, तो ऐसे व्यक्ति या वाहन चालक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाए। इसके साथ ही सभी सड़कों के पैचवर्क का कार्य जरूर करवाया जाए तथा सड़कों व धुंध के मौसम के मद्देनजर सभी सड़क मार्गों व किनारों पर सफेद पट्टी जरूर लगाई जाए।

उपायुक्त ने कहा कि जिला सड़क सुरक्षा समिति जनमानस को सड़क सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करने और सड़कों पर सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सड़कों पर सुरक्षित यातायात के लिए संबंधित विभाग जरूरी कार्यवाही करें। उन्होंने सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिस्मी के तहत सड़क के साथ लगाते स्कूलों के सामने स्पीड ब्रेकर

बनाने के निर्देश भी दिए ताकि विद्यार्थियों को स्कूल प्रवेश या बाहर आते समय यातायात संबंधी कोई भी समस्या ना हो। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित एंबुलेंस मौजूद हो और उसकी लोकेशन नजदीकी थातों व अस्पतालों से भी होनी चाहिए। सड़कों व चौराहों पर स्थित सभी ट्रैफिक लाइटें चालू रहनी चाहिए। जहां पर रोड खराब है, उसे ठीक करवाया जाए तथा इस पर लाइटें भी चालू रखी जाएं। उपायुक्त ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण व पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि वाहनों पर ट्राई एंगल में रिफ्लेक्टर टेप लगाई जाएं, ताकि रात्रि समय में वाहनों को दूर से देखना संभव हो सके। इसके लिए पूरा जिला में अभियान चलाया जाए तथा रिक्शा, रेहड़ी, ट्रेक्टर-ट्राली, बड़े वाहन सहित अधिक से अधिक वाहनों को कवर किया जाए। यह सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है।

उपायुक्त ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में संबंधित विभागों को दिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों की अनुपालना जरूरी

उपायुक्त ने बताया कि गत दिनों जिला में ओवर स्पीड के 150 चालान किए गए हैं। अगर कोई वाहन चालक यातायात नियमों की अनुपालना नहीं करता है, तो उसका चालान अवश्य किया जाए। ट्रैफिक में जो नया स्टॉफ आया है, उनकी वर्कशॉप आयोजित कर सभी नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए। स्कूलों में बच्चों की क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। जो बच्चे क्विज में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, उन्हें विभिन्न मंचों पर सम्मानित करवाया जाए। इस अवसर पर एसडीएम फिरोजपुर झिरका डा. चिन्ना चहल, एसडीएम नूहा प्रदीप सिंह अहलावत, एसडीएम पुन्हाना संजय सिंह, एसडीएम तावडू संजीव कुमार, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सचिव मुनीप सहगल लोक निर्माण विभाग व संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

गोपाल स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स अकादेमी की ऐतिहासिक सफलता

समाचार गेट/ब्यूरो बल्लभगढ़। गोपाल स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स अकादेमी, छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सेक्टर - 62 बल्लभगढ़ फरीदाबाद, के अनुभवी कोच राकेश शर्मा द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण ने अकादेमी का नाम रोशन कर दिया। 130 और 31 दिसंबर 2024 को जम्मू और कश्मीर में आयोजित नॉर्थ इंडिया मुएथाइ चैंपियनशिप में अकादेमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हरियाणा प्रदेश, फरीदाबाद जिले का नाम का नाम रोशन किया। मुएथाइ एसोसिएशन जम्मू और कश्मीर द्वारा आयोजित इस

प्रतियोगिता में अकादेमी के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इन विजेताओं ने अपनी मेहनत, समर्पण और जोश के साथ अपने और अकादेमी का नाम रोशन किया।

इनकी सफलता ने ना केवल हरियाणा प्रदेश, फरीदाबाद जिले को गर्व महसूस कराया। भविष्य में भी इन खिलाड़ियों से यही उम्मीद की जाती है कि वे इसी प्रकार अपनी मेहनत और प्रदर्शन से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे। इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले

खिलाड़ियों में निखिल शर्मा, निखिल देशवाल, प्रीतिका धारीवाल, हिमांशी रावत, हिमांशी भारद्वाज, कृष्णा रावत, नैतिक, और अंकिता जैसी प्रतिभाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं में देव शर्मा, विभोर मुदगिल, सनी, प्रिंस, रशालान, माधव, और शौर्य का नाम शामिल है। सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली खिलाड़ी अंकिता है। इन सभी खिलाड़ियों की सफलता के पीछे राकेश शर्मा के मार्गदर्शन और उनके कोचिंग के अनुभव का अहम योगदान है। इन विजेताओं की कड़ी मेहनत और प्रशिक्षकों की देखरेख ने

उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। इन खिलाड़ियों के माता-पिता और अभिवाकों ने भी इनकी सफलता पर खुशी जताई और उन्हें बधाई दी। इस सफलता ने यह साबित कर दिया कि अगर किसी को सही मार्गदर्शन मिले और वह अपनी मेहनत में पूरा विश्वास रखे, तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। राकेश शर्मा की अकादेमी अब न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत में एक प्रेरणा बन चुकी है। इन खिलाड़ियों की यह जीत भविष्य में और भी बच्चों को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में प्रेरित करेगी, और वे भी इसी तरह अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे।

प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन सतर्क

पटाखों के भंडारण, बिक्री व प्रयोग पर 17 जनवरी तक रहेगी रोक

समाचार गेट/सुमित गोयल फरीदाबाद। जिला प्रशासन फरीदाबाद जिला में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पूर्ण रूप से सतर्क है। जिला में पर्यावरण के लिए घातक बेरियम सॉल्ट वाले पटाखे बेचने व प्रयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला में किसी को भी सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के आदेशों की जिला में अवहेलना नहीं करने दी जाएगी। जिला में पटाखों का भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले उक्त अधिनियम की धारा 15 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होंगे।

सर्दियों के महीनों में विशेष रूप से अक्टूबर से जनवरी के दौरान एनसीआर के साथ-साथ हरियाणा राज्य में वायु प्रदूषण अपने चरम पर होता है और यह भी देखा गया है कि सर्दियों के महीनों के दौरान होने वाली विभिन्न घटनाएं हरियाणा राज्य में विशेष रूप से भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों के आसपास के जिलों में वायु प्रदूषण के स्तर को बढ़ाती हैं। विभिन्न आयोजनों के दौरान, पटाखे फोड़ने से वायु प्रदूषण का स्तर प्रभावित होता है क्योंकि पटाखे न केवल हवा में धातु के कण, खतरनाक विषाक्त पदार्थ, हानिकारक रसायन और हानिकारक गैस छोड़ते हैं

बल्कि पीएम 2.5 या पीएमटीई जैसे हानिकारक कण भी बढ़ाते हैं जो परिवेशी वायु गुणवत्ता पर बहुत गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। उपरोक्त के मद्देनजर, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 152 (ई) दिनांक 10 फरवरी 1988 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत, निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं कि हरियाणा राज्य में एनसीआर क्षेत्र में आने वाले जिलों में सभी प्रकार के पटाखों के विनिर्माण, भंडारण,

बिक्री (एनसीआर ऑनलाइन विपणन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से वितरण सहित) और फोड़ने पर 17 जनवरी 2025 तक तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन ने आमजन से आह्वान किया कि वे पर्यावरण का खाल रखें। पटाखों की वजह से हमारे आस-पास का पर्यावरण तेजी से दूषित होता है। प्रदूषण को वजह से हम अपने आप को व अपनी सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि हम आज ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी दिखाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित कर पाएंगे।

संजय कॉलोनी में पुलिस-पब्लिक कोआर्डिनेशन गोष्ठी का किया आयोजन

समाचार गेट/सुमित गोयल फरीदाबाद। पुलिस के द्वारा लगातार जागरूकता प्रोग्राम किया जा रहे हैं इसी क्रम में आज सामुदायिक पुलिसिंग टीम ने प्रबंधक थाना मुजेसर और प्रभारी चौकी संजय कॉलोनी के सहयोग से संजय कॉलोनी चौकी परिसर में पुलिस-पब्लिक कोआर्डिनेशन गोष्ठी का आयोजन किया।

कार्यक्रम का आरंभ : गोष्ठी का शुभारंभ प्रबंधक थाना मुजेसर द्वारा स्थानीय नागरिकों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए किया गया। इसके पश्चात सामुदायिक पुलिसिंग टीम ने उपस्थित नागरिकों को विभिन्न सामाजिक एवं सुरक्षा मुद्दों पर जागरूक किया।

चर्चा के मुख्य विषय : नशा मुक्त अभियान: अवैध नशे के व्यापार को रोकने और नशा मुक्त समाज बनाने की अपील। साइबर अपराध: इससे बचने के उपाय और पुलिस द्वारा उपलब्ध साइबर सुरक्षा सेवाएं। सड़क सुरक्षा: सड़क दुर्घटनाओं से बचने के उपाय और घायल व्यक्तियों की मदद करने की



जागरूकता।

महिला सुरक्षा: महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जागरूकता। साथ ही, अवैध गतिविधियों और अपराधों की सूचना पुलिस को देने हेतु नागरिकों को प्रेरित किया गया।

समस्याओं और सुझावों पर चर्चा: गोष्ठी के दौरान, प्रबंधक थाना मुजेसर ने स्थानीय नागरिकों, आरडब्ल्यूए प्रधानों, और मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से उनकी समस्याएं और सुझाव पूछे। प्राप्त सुझावों और समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। संबंधित पुलिस

अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि एक सप्ताह के भीतर इन समस्याओं और सुझावों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। भविष्य में इन मुद्दों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश भी दिया गया।

सामाजिक जिम्मेदारी का आह्वान: प्रबंधक थाना ने सभी को अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने और पुलिस के साथ सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने नागरिकों को प्रेरित किया कि वे अपने क्षेत्र को अपराध मुक्त, नशा मुक्त, और सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

कार्यक्रम का समापन: गोष्ठी का समापन सभी नागरिकों का धन्यवाद करते हुए किया गया। फरीदाबाद पुलिस का संदेश: आपकी सुरक्षा, हमारी प्राथमिकता। आइए, मिलकर एक सुरक्षित और बेहतर समाज का निर्माण करें। उपस्थित अधिकारी: गोष्ठी में प्रबंधक थाना मुजेसर, प्रभारी चौकी संजय कॉलोनी, और सामुदायिक पुलिसिंग टीम के सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस आयोजन ने पुलिस और जनता के बीच सहयोग को और अधिक मजबूत किया और क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

समाधान शिविर में आई शिकायतों के निवारण के लिए निर्देश

समाधान शिविर में वीरवार को आई 4 शिकायतें : नगराधीश अशोक कुमार



समाचार गेट/अनिल मोहनियां नूहा। स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में प्रतिदिन आयोजित हो रहे समाधान शिविर की निरंतरता में वीरवार को आयोजित समाधान शिविर में नगराधीश अशोक कुमार ने शिकायतें सुनीं। वीरवार को समाधान शिविर में कुल 4 शिकायतें सामने आईं तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान शिविर में आई शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि कुल 3

जनवरी को तावडू एसडीएम कार्यालय में आयोजित समाधान शिविर में उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा लोगों की शिकायत सुनें। अतः उपमंडल तावडू से संबंधित लोग अपनी शिकायत के समाधान के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले समाधान शिविर में पहुंच सकते हैं। यह शिविर प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक एसडीएम कार्यालय तावडू में आयोजित होगा। नगराधीश अशोक कुमार ने कहा कि अधिकारी समाधान शिविरों में

प्राप्त हो रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यथाशीघ्र निपटारा सुनिश्चित करें। इनमें प्रमुख तौर पर प्रोपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, जमीन का पंजीकरण, बिजली - सिंचाई- सार्वजनिक स्वास्थ्य, समाज कल्याण पेंशन तथा अपराध की शिकायतें और राशन कार्ड जैसी तमाम समस्याओं को शामिल किया गया है। इनसे संबंधित हर प्रकार की शिकायतों के समाधान के लिए समाधान शिविर में संपर्क किया जा सकता है। सरकार द्वारा निरंतर

3 जनवरी को उप मंडल तावडू में आयोजित होने वाले समाधान शिविर में उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा सुनें लोगों की शिकायतें।

समाधान शिविर में प्राप्त हो रही शिकायतों के समाधान की समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय व मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा निरंतर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान शिविरों की निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा समाधान शिविर के तहत एक छत के नीचे सभी विभागों की शिकायतों का यथासंभव निपटारा करवाया जा रहा है। प्रत्येक कार्य दिवस जिला मुख्यालय के साथ-साथ उपमंडल मुख्यालय पर सुबह 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

प्राचार्या प्रोमिला कुमारी ने किया एनएसएस शिविर का शुभारंभ

समाचार गेट/अनिल मोहनियां नूहा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छपेड़ा में कार्यरत राष्ट्रीय सेवा योजना का सात दिवसीय शिविर का शुभारंभ स्कूल प्राचार्या प्रोमिला कुमारी ने रिबन काटकर किया। उन्होंने कहा कि इस शिविर में एनएसएस के बच्चों द्वारा स्वच्छता, नशे के प्रति जागरूकता अभियान रैली का आयोजन, साइबर अपराध से बचने के तरीके, प्लास्टिक मुक्त भारत तथा सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता फैलाने संबंधी कार्य किए जाएंगे। उन्होंने सभी स्वयंसेवकों का आह्वान किया कि वे कैंप के दौरान अनुशासन के साथ सभी सामाजिक मुद्दों के संबंध में लोगों को जागरूक करें। स्कूल के राष्ट्रीय सेवा



अधिकारी जीतराम ने सात दिनों के कैंप की पूरी रूपरेखा के बारे में जानकारी दी और कहा कि इस दौरान समाज व समुदाय के लोगों को

जागरूक किया जाएगा। कैंप के आयोजन के दौरान जिला समन्वयक अशरफ अली ने भी दौरा कर बच्चों की गतिविधियों का निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सुझाव दिया व नशा मुक्त जागरूकता रैली में शामिल हुए।

सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं अंत्योदय परिवार : उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा



समाचार गेट/अनिल मोहनियां नूहा। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से अंत्योदय परिवारों के लिए अंत्योदय परिवार बिजली बिल माफी योजना लागू की हुई है।

इस योजना के तहत ऐसे अंत्योदय परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है और बिजली की मासिक खपत 150 यूनिट से कम है, का बिजली बिल पर पूरा ब्याज माफ किया जाएगा। उन्होंने बताया

कि योजना के तहत 50 प्रतिशत मूल राशि भी माफ की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाकी की 50 प्रतिशत राशि साल के अंतराल के बाद 3 साल तक किस्तों में जमा करा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि बिजली चोरी के मामलों में अंत्योदय परिवार 100 प्रतिशत मिश्रित राशि और 50 प्रतिशत मूल्यांकन राशि ब्याज सहित किस्तों में जमा करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवाट तक 30000 रुपए प्रति किलोवाट सब्सिडी तथा 18000 रुपए अतिरिक्त 2 से 3 किलोवाट के बीच प्रदान की जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा 50000 रुपए तक की सब्सिडी गरीब परिवारों को जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट या उससे कम है और परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए या उससे कम है और 20000 रुपए तक की सब्सिडी जिनकी आय 1.80 से 3 लाख रुपए के बीच में है, को प्रदान की जाती है। उन्होंने अंत्योदय परिवारों से सरकार की योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है।

संपादकीय

‘रेवड़ी कल्चर’ का खतरनाक साया

दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मी उग्र से उग्रतर होती जा रही है। आम आदमी पार्टी मतदाताओं को लुभाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। चुनाव से पहले अब आम आदमी पार्टी ने एक ऐसी लुभावनी, मतदाताओं को आकर्षित करने की योजना की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को 18 हजार रुपए महीने दिए जाएंगे। इस योजना का नाम पुजारी-ग्रंथी योजना है। मुस्लिम धर्म एवं उनके अनुयायियों को रिश्ते-रिश्ते एकदम से केजरीवाल को हिन्दू धर्म के पुजारी का नाम पुजारी-ग्रंथी योजना है। मुस्लिम धर्म एवं उनके अनुयायियों को रिश्ते-रिश्ते एकदम से केजरीवाल को हिन्दू धर्म के पुजारी का नाम पुजारी-ग्रंथी योजना है। मुस्लिम धर्म एवं उनके अनुयायियों को रिश्ते-रिश्ते एकदम से केजरीवाल को हिन्दू धर्म के पुजारी का नाम पुजारी-ग्रंथी योजना है।



नरवीर यादव
कार्यकारी संपादक

दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मी उग्र से उग्रतर होती जा रही है। आम आदमी पार्टी मतदाताओं को लुभाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। चुनाव से पहले अब आम आदमी पार्टी ने एक ऐसी लुभावनी, मतदाताओं को आकर्षित करने की योजना की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को 18 हजार रुपए महीने दिए जाएंगे। इस योजना का नाम पुजारी-ग्रंथी योजना है। मुस्लिम धर्म एवं उनके अनुयायियों को रिश्ते-रिश्ते एकदम से केजरीवाल को हिन्दू धर्म के पुजारी का नाम पुजारी-ग्रंथी योजना है। मुस्लिम धर्म एवं उनके अनुयायियों को रिश्ते-रिश्ते एकदम से केजरीवाल को हिन्दू धर्म के पुजारी का नाम पुजारी-ग्रंथी योजना है। मुस्लिम धर्म एवं उनके अनुयायियों को रिश्ते-रिश्ते एकदम से केजरीवाल को हिन्दू धर्म के पुजारी का नाम पुजारी-ग्रंथी योजना है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मी उग्र से उग्रतर होती जा रही है। आम आदमी पार्टी मतदाताओं को लुभाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। चुनाव से पहले अब आम आदमी पार्टी ने एक ऐसी लुभावनी, मतदाताओं को आकर्षित करने की योजना की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को 18 हजार रुपए महीने दिए जाएंगे। इस योजना का नाम पुजारी-ग्रंथी योजना है। मुस्लिम धर्म एवं उनके अनुयायियों को रिश्ते-रिश्ते एकदम से केजरीवाल को हिन्दू धर्म के पुजारी का नाम पुजारी-ग्रंथी योजना है। मुस्लिम धर्म एवं उनके अनुयायियों को रिश्ते-रिश्ते एकदम से केजरीवाल को हिन्दू धर्म के पुजारी का नाम पुजारी-ग्रंथी योजना है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मी उग्र से उग्रतर होती जा रही है। आम आदमी पार्टी मतदाताओं को लुभाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। चुनाव से पहले अब आम आदमी पार्टी ने एक ऐसी लुभावनी, मतदाताओं को आकर्षित करने की योजना की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को 18 हजार रुपए महीने दिए जाएंगे। इस योजना का नाम पुजारी-ग्रंथी योजना है। मुस्लिम धर्म एवं उनके अनुयायियों को रिश्ते-रिश्ते एकदम से केजरीवाल को हिन्दू धर्म के पुजारी का नाम पुजारी-ग्रंथी योजना है। मुस्लिम धर्म एवं उनके अनुयायियों को रिश्ते-रिश्ते एकदम से केजरीवाल को हिन्दू धर्म के पुजारी का नाम पुजारी-ग्रंथी योजना है।

जनवरी 2025 तक पूरा नहीं हो सका कनीना के निर्माणाधीन लघु सचिवालय का निर्माण कार्य

होली त्यौहार तक फिटिंग का कार्य पूरा होने की उम्मीद

समाचार गेट/सुनील दीक्षित कनीना। कनीना के नवनिर्मित लघु सचिवालय भवन का निर्माण कार्य जनवरी 2025 तक पूरा करने का समय दिया गया था। लेकिन इस अवधि में यह कार्य पूरा नहीं किया जा सका। कछुआ गति से हो रहे निर्माण कार्य को देखकर अब रणोत्सव पर्व होली तक पूरा होने का अनुमान है। तत्कालीन एसडीएम की ओर से ठेकेदार को कार्य में तेजी लाने तथा जनवरी माह के पहले सप्ताह में भवन हैंडओवर करने के निर्देश दिए गए। जिस पर ठेकेदार ने भी इस नित्य अवधि में कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया था।

बता दें कि प्रदेश के तत्कालीन सीएम मनोहर लाल ने वर्ष 2015 में जिसका महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित जनसभा में इसके बजट



अलात करने करने की घोषणा की थी। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद विधायक सीताराम यादव, अभय सिंह व केंद्रीय वजीर बिन इन्द्रजीत सिंह एवं हाईकोर्ट के न्यायधीश की उपस्थिति में 23 मार्च

2022 को इसका शिलान्यास किया गया था। जबकि उपमंडल स्तरीय न्यायालय भवन का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो सका है। बिना उचित भवन के कनीना में संचालित दो नियमित एवं एक

साप्ताहिक कोर्ट भी जैसे-तैसे काम चला रही हैं।

अधिवक्ता भी गर्मी-सर्दी एवं बारिश में टोनशेड के नीचे बैठकर कार्य करने को मजबूर हैं। बहरहाल लघु सचिवालय का कार्य पूरा होने के बाद आमजन को सुविधा मिलने की उम्मीद है। अटेली हलके की नवनिर्वाचित विधायक एवं प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव द्वारा भवन का उद्घाटन किया जायेगा। एसडीएम जितेंद्र सिंहो अहलावत ने कि निर्माण कर रही कम्पनी को दरवाजे, खिडकी, बिजली फिटिंग, रंग-पेंट व फर्नीचर के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण का कार्य पूरा होने पर एसडीएम कार्यालय सहित अन्य उपमंडल स्तरीय कार्यालय नए भवन में संचालित होंगे।

एसडी विद्यालय ककराला में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का शुभारंभ



समाचार गेट/सुनील दीक्षित

कनीना। एसडी विद्यालय ककराला के प्रांगण में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आयोजन किया गया। जिसका शुभारंभ प्रधानाचार्य ओमप्रकाश यादव ने किया। उन्होंने स्वयं सेवकों को राष्ट्रीय सेवा योजना के चिन्ह तथा कार्यों के बारे में जानकारी दी। एनएसएस इंचार्ज विनय कुमार ने बताया कि शिविर के माध्यम से स्वयंसेवकों द्वारा साफ-सफाई, नशाखोरी पर अंकुश लगाने तथा खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करने लिए आमजन को जागरूक किया जाएगा। स्वयंसेवकों ने विद्यालय प्रांगण की सफाई कर नागरिकों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस उपलक्ष में विद्यालय के निदेशक जगदेव सिंह यादव ने राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवकों के कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना युवाओं के विकास तथा सामाजिक कार्यों में भागीदारी के लिए बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि एनएसएस कार्यकर्ता समाज को नई दिशा देने का काम करता है। वे अपने आसपास समाज में जागरूकता फैलाने के साथ-साथ समाज उत्थान के लिए काम करते हैं।

कबड्डी में 11 जनवरी को लालगिरी मेले में टीमें दिखायगीं दम

समाचार गेट/सुनील दीक्षित

कनीना। कनीना के बाबा लाल गिरी आश्रम में आगामी 11 जनवरी को आयोजित होने वाले मेले को लेकर बृहस्पतिवार को बैठक का आयोजन किया गया जिसमें मेला कमेटी सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस मेले में राजी जागरण, भंडारा सहित खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। खेलकूद प्रतियोगिता में सर्कल कबड्डी में विजेता टीम को 61 हजार, उपविजेता टीम को 31 हजार तथा तृतीय स्थान पर रहने वाली टीम को 21 हजार रूपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कबड्डी के बेस्ट केचर एवं रैंडर को 5100-5100 का पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें अलावा बुजुर्गों की दौड़, लडके एवं लडकियों की दौड़ होगी। मेले में भंडारा भी होगा। 10 जनवरी की रात्री को जागरण होगा। मेले में के मुख्य अतिथि अतरलाल, विनय यादव एडवोकेट, पूर्व पार्षद मनीष यादव व कुणाल राव होंगे।

कार ने बाइक को मारी टक्कर, एक मौत

समाचार गेट/सुनील दीक्षित

कनीना। कनीना-महेंद्रगढ़ सड़क मार्ग पर कनीना के समीप घटित एक सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। इस बारे में रिवासा निवासी विशाल ने कनीना शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसक पिता सहोराम बाईक पर सवार होकर उसकी बहन के पास रेवाडी जा रहा था। उसे सूचना मिली की उसके पिता का एक्सपेंडेंट हो गया है। जब वह कनीना पहुंचा तो उसके पिता को हायर सेंटर के लिए रैफर कर दिया गया था। थायल उससे अपने पुत्र विशाल से बताया कि रिंग साइड से आ रही सफेद रंग की कार ने उनकी बाईक को टक्कर मार दी। जिससे बाइक क्षतिग्रस्त हो गई वहीं उन्हें भी गंभीर चोटें लगी। हादसे के बाद कार चालक गाडी छोड़कर फरार हो गया। उन्होंने इस घटना की जानकारी 112 नम्बर डायल पर पुलिस को दी। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से उन्हें उप नागरिक अस्पताल कनीना दाखिल कराया गया। जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार कर उसे हायर सेंटर के लिए रैफर कर दिया। रेवाडी के अस्पताल में उपचार के दौरान सहोराम ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हादसे के आरोपी कार चालक के विरुद्ध केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

संयुक्त किसान मोर्चा के आवाहन पर चार जनवरी को टोहाना में महापंचायत



समाचार गेट/सोनिका सूरा

सिवानी। जम्हूरी किसान सभा हरियाणा के राज्य कन्वीनर आजाद सिंह मिरान ने बताया कि 4 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने टोहाना में किसान मजदूर महापंचायत बुलाई है महापंचायत बुलाने का कारण केन्द्र सरकार ने किसानों कि बाकी मांगों को लागू ना करना जिसमें एन एस पी कानून बनाना लखीमपुर खीरी के दोषी को सजा देना शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा देना किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्द करना जैसी मांगों पूरी नहीं कि है वहीं हरियाणा सरकार पिछले लम्बे समय से खेती व शंभू बोर्ड पर चल रहे किसानों के धरने से किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला आमरण अनशन पर बैठा है उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही हैं अभी तक सरकार ने कोई बातचीत के लिए नहीं बुलाया है महापंचायत में जम्हूरी किसान सभा भारी संख्या के साथ भाग लेंगी।

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

समाचार गेट
को TITLE CODE : HARHIN11569

आवश्यकता है

♦ हरियाणा के प्रत्येक जिले में ब्यूरो चीफ

♦ उपमंडल व ब्लॉक स्तर पर संवाददाता

♦ ग्रामीण संवाददाता ♦ फोटोग्राफर

♦ विज्ञापन प्रतिनिधि

इच्छुक युवक-युवती अपना बायोडेटा मेल करें-

samachargate@gmail.com

Cont.: 9212339503

मोडी में बिजली कर्मियों से मारपीट करने के आरोपियों की गिफ्तारी की मांग

बिजली कर्मचारियों ने धरना देकर जताया आक्रोश

समाचार गेट/सुनील दीक्षित कनीना। बिजली चोरी पकड़ने गई निगम की टीम पर ग्रामीणों द्वारा किए गए हमले को लेकर बिजली कर्मचारियों ने बैठक कर उनकी गिफ्तारी की मांग की है। उनकी ओर से बृहस्पतिवार को एसडीओ बिजली निगम कार्यालय के सामने धरना देकर विरोध जताया गया है। जेई रामरतन शर्मा ने बताया कि बीती 16 दिसंबर को निगम कर्मियों की सात सदस्यीय टीम कनीना खंड के गांव मोडी सीटि टोलवा की ढाणी में छपा मारने गई थी। टीम में विजय कुमार जेई-1, आनंद कुमार जेई,

राकेश कुमार व संदीप कुमार एएफएम, संदीप कुमार एलएम, धर्मवीर एएलएम तथा गाडी चालक बिंदेंद्र शामिल थे। उन्होंने बिजली चोरी की जांच शुरू की तो सुनील, हरीश, ब्रह्मप्रकाश, परमवीर, लालाराम, नरेश सहित अन्य व्यक्तियों ने लाठी-डंडों से हमला बोल दिया। जिसमें वे घायल हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर एक आरोपी को काबू कर लिया है जबकि अन्य को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर बिजली कर्मचारी आक्रोश जता रहे हैं। इस मौके पर राजेंद्र कपुरी,



आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इस मौके पर राजेंद्र कपुरी,

हवासिंह यादव, महावीर पहलवान, शिवकुमार, मनोज कुमार सहित अन्य बिजली कर्मचारी उपस्थित थे।

खिलाडी गलतियों से सब लेकर आगे बढ़ें : कुणाल धनौदा में 4 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ



समाचार गेट/सुनील दीक्षित कनीना। कनीना-दादरी मार्ग स्थित गांव धनौदा में चार दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित हुई। जिसका शुभारंभ बृहस्पतिवार को किया गया। बाबा दयाल की स्मृति

में आयोजित 70वीं फुटबॉल प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि कुनाल राव थे तथा अध्यक्षता अजमेर सिंह दंगी ने की। कुणाल राव ने कहा कि खिलाडी खेल में होने वाली गलतियों से सबक ले और अनुशासन में रहकर

अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि सरकार भी खेलों को बढ़ावा दे रही है। अजमेर सिंह दंगी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है लेकिन उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते। उन्होंने धनौदा फुटबॉल क्लब द्वारा खिलाड़ियों के लिए किए गए आयोजन की सराहना की। क्लब के सदस्य सुरत सिंह ने बताया कि सुबह आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में विभिन्न गांवों से आए धावकों ने हिस्सा लिया।

बुजुर्गों की दौड़ में रामभगत पाहलावास ने प्रथम, रोशनलाल कनीना ने द्वितीय स्थान हासिल किया। इसी प्रकार 100 मीटर ओपन

दौड़ में अविनाश रेवाडी ने प्रथम, संजय सतनाली ने द्वितीय, 400 मीटर दौड़ में आदित्य गोतड़ा ने प्रथम व बबलू नारानी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 800 मीटर दौड़ में हेमंत मेघनवास प्रथम व रवि भिवाडी द्वितीय स्थान पर रहे। 1600 मीटर दौड़ में बबलू नारानी प्रथम व मुकेश खरकड़ाबास द्वितीय स्थान पर रहा। उन्होंने बताया कि फुटबॉल प्रतियोगिता में दूर दराज से आइ करीब 32 टीमों हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का समापन 5 जनवरी को होगा। इस मौके पर मुकेश कुमार, दीपक शर्मा, बीर सिंह, पूर्व सरपंच सुरेंद्र सिंह, राजेंद्र नंबरदार, भूपेंद्र सिंह, किसानपाल सहित ग्रामीण उपस्थित थे।

जिला परिवर्तन संघर्ष समिति ने विधायक रणधीर पनिहार को सौंपा ज्ञापन

समाचार गेट/सोनिका सूरा सिवानी मंडी। भिवानी से है इंकार हमको चाहिए जिला हिसार जिला परिवर्तन संघर्ष समिति ने क्षेत्र के नजदीकी नलवा विधायक रणधीर पनिहार के आवास पर मुलाकात की। और सिवानी क्षेत्र को लंबे असें उठाई जा रही जिला परिवर्तन की मांग को लेकर विधायक के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस बारे में



जि जरूरी मांग ज्यों की त्यों ही पड़ी है। उन्होंने विधायक रणधीर पनिहार से मांग करते हुये कहा की सरकार आने वाले समय में विभिन्न जिलों में फेरबदल करने जा रही है। इसलिए सिवानी क्षेत्र को भिवानी से हटवाकर हिसार जिले में शामिल किया जाये ताकि क्षेत्र के लोगों को नजदीकी जिला होने से फायदा हो सके वहीं जिला परिवर्तन संघर्ष समिति के संरक्षक महेंद्र लखेरा ने बताया की समिति ने जिला परिवर्तन के साथ साथ सिवानी में हरियाणा रोडवेज का सब डीपो बनाने और सिंचाई विभाग की पेशानियों को सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया की तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिवानी क्षेत्र को हिसार में शामिल करने की घोषणा की थी। जिसमें सिवानी उपमंडल की सभी पंचायतों ने जिला परिवर्तन के लिये प्रस्ताव भी दिये थे। मगर उसके बावजूद भी जिला परिवर्तन के लिये सरकार और प्रशासन के कदम नहीं उठाया। उन्होंने बताया की जिला परिवर्तन की मांग को लेकर जिला परिवर्तन संघर्ष समिति ने अनेकों बार धरना प्रस्तान, मांग पत्र भी सौंपे लेकिन जिला परिवर्तन नहीं किया गया। जिसकी वजह से क्षेत्र के लोगों

परिवर्तन संघर्ष समिति की सभी

पेड़-पौधे हैं हमारी जिंदगी: डॉ. मिश्रा

समाचार गेट/सोनिका सूरा

सिवानी। सिवानी खण्ड के निकटवर्ती गांव खेड़ा स्थित आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के परिसर में नववर्ष के शुभारंभ पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अनूठी पहल के तहत पर्यावरण जागरूकता को आगे बढ़ाते हुए वृक्षारोपण किया गया। इसकी जानकारी देते हुए स्कूल प्रिंसिपल डॉ. संजय मिश्रा ने बताया कि पेड़-पौधे हमारी जिंदगी है। ये हमें न केवल सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देते हैं बल्कि कई प्रकार की घातक बीमारियों को दवाएं भी देते हैं हमारे आयुर्वेद के अनुसार तो जड़ी बूटियों से सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज संभव है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग व वैश्विक जलवायु परिवर्तन और दिनों-दिन बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इनसे बचने का एक ही तरीका है साथ-साथ पुराने पेड़ों की रक्षा भी करें। इस मौके पर स्कूल स्टाफ से लगभग, पर्यावरण प्रेमी मुकेश धनिया, हिमांशु मदान, सतीश कादम, सुंदर गाई व मोहित आदि उपस्थित रहे।



ताजा बर्फबारी के साथ घुसपैठ की संभावना, सेना ने गश्त बढ़ा दी

जम्मू | जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सुरक्षा उपायों और घुसपैठ के प्रयासों को लेकर सेना को बढ़ाया गया है। पीर पंजाल की पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी के साथ-साथ घुसपैठ की संभावनाओं को देखकर सेना ने गश्त बढ़ा दी है और निगरानी के लिए अत्याधुनिक प्रणालियों का इस्तेमाल हो रहा है। बता दें कि पाकिस्तान में आईएसआई और अन्य आतंकवादी संगठनों के बीच बैटक के बाद भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ को बढ़ाने की योजना बनाई गई है, जिससे सुरक्षा बलों की चौकसी में और बढ़ाया है। सेना दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए थर्मल इमेजिंग डिवाइस, नाइट विजन कैमरे और यूएवी ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। 2024 में सुरक्षाबलों ने कई आतंकवादी कमांडरों सहित 50 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें से दो दर्जन पाकिस्तान के थे। इस दौरान सुरक्षा बलों को भी नुकसान हुआ, लेकिन सेना ने अपनी गश्त और निगरानी प्रणाली को मजबूत किया है। सेना के जवानों के ऑपरेशनों के दौरान ड्रोन की सहायता ली जाती है, जिससे नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की निगरानी की जाती है।

बिहार में मुर्गी फार्म में लगी आग, 1200 चूने जिंदा जलकर मरे

—पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज किया

पटना। पटना के जर्नादनपुर गांव में एक मुर्गी फार्म में असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाने का मामला आया है। संचालक कुंदन कुमार का कहना है कि बदमाशों ने वहां मौजूद मेरी मां को बंधक बनाया। मां की कान की बाली और सोने की चेन छीन लिया। डेढ़ लाख रूपए भी बदमाश ले गए। घटना की सूचना पर पहुंची अग्निशमन दल आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 1,200 चूने जिंदा जलकर मारे गए। चंदन कुमार ने बताया कि मां ऑफिस में आराम कर रही थी। उसके बाद छह-सात की संख्या में आए बदमाशों ने हमारे मुर्गी फार्म में चारों तरफ पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस आगजनी में 1200 चूने जिंदा जले और 5 लाख रूपए का नुकसान हुआ। आग लगने की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।

भाजपा नेता नकवी का तंज, जेब में कौड़ी नहीं है लेकिन वादे करोड़ों के कर रहे केजरीवाल



नई दिल्ली। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर फिजूलखर्ची का आरोप लगाया है। उन्होंने केजरीवाल पर तंज कसा कि जेब में कौड़ी नहीं है लेकिन वादे करोड़ों के कर रहे हैं। नकवी ने कहा, जेब में कौड़ी नहीं और चुनाव आते ही करोड़ों के वादे करते हैं। दिल्ली की सत्ता में काबिज हुए केजरीवाल को 10 साल बीत चुके हैं। 10 सालों में कई वादे किए, वादे करके लोगों के सामने यह हीरो बन गए। हकीकत में यह जीरो निकले हैं। दरअसल, भाजपा नेता केजरीवाल के उस पत्र का जवाब दे रहे थे। इसमें केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखा था। एक जनवरी को लिखे पत्र में केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख से चार सवाल पूछे। वहीं खबरें चल रही हैं कि आरएसएस दिल्ली चुनावों में भाजपा के लिए वोट मांगेगी। क्या ये सही है? इसके पहले लोग आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों भाजपा ने जो गलत हरकतें की हैं, क्या आरएसएस उनका समर्थन करती है? भाजपा के नेता खुलकर पैसे बांटकर वोट खरीद रहे हैं। क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? बड़े स्तर पर गरीब, दलित, पूर्वांचली और झुग्गी में रहने वालों के वोट कटवाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये लोग कई कई सालों से यहां रह रहे हैं।

आगरा कोर्ट में कंगना रनोत पर फैसला 9 को

आगरा। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश की मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनोत गुरुवार को भी आगरा की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश नहीं हुईं। कंगना के वकील भी पक्ष रखने के लिए नहीं पहुंचे। कोर्ट में बहस पूरी हुई। एडवोकेट और वादी रमेशकिर शर्मा ने कोर्ट में कहा- तीन बार नोटिस मिलने के बाद भी कंगना रनोत कोर्ट में पेश नहीं हुईं हैं। उनकी तरफ से उनके वकील भी नहीं पहुंचे। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि 9 जनवरी को कंगना को कोर्ट में तलब किया जाए। 9 जनवरी को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। किसानों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति अभद्र टिप्पणी के मामले में उन पर राष्ट्रद्रोह का केस लगाने की मांग की गई है।

खालिस्तान समर्थक अमृतपाल बनाएगा नई पार्टी

-14 जनवरी को माघी मेले में घोषणा होगी, अकाली दल भी वार्षिक सम्मेलन करेगा

अमृतसर। असम की डिब्रूगढ़ जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत बंद खालिस्तान समर्थक और खट्टर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह 14 जनवरी को पंजाब की नई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे। श्री मुकुंजर साहिब में माघी पर्व के अवसर पर आयोजित माघी दा मेला के दौरान इसकी घोषणा की जाएगी। इस अवसर पर पंथ बचाओ, पंजाब बचाओ रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। रैली के दौरान अमृतपाल सिंह के पिता और उनके करीबी सहयोगी पार्टी की घोषणा करेंगे। अपने विवादित बयानों और सिख पंथ से जुड़े मुद्दों को लेकर अवसर चर्चा में रहने वाले अमृतपाल सिंह के इस कदम से क्षेत्रीय राजनीति में हलचल मच गई है। उनकी पार्टी के मुद्दे राज्य में सिख समुदाय के हिंदों की रक्षा करना और पंजाब की स्थानीय समस्याओं जैसे बेरोजगारी, कृषि संकट और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

भारत से पंगा लेकर आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसी होगी हालत

चावल, गेहूं, प्याज, लहसुन, चीनी, कपास, अनाज के लिए भारत पर निर्भर

नई दिल्ली (एजेंसी)। अगस्त में शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश ने भारत की खिलाफत करना शुरू कर पाकिस्तान-चीन से करीबी बढ़ाने लगा। हालांकि, वे इस तथ्य को नजरअंदाज कर रहा है कि वह अलग-अलग जरूरत की चीजों के लिए भारत पर निर्भर हैं और दूरी बनाना उसकी अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी साबित होगा।

भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बांग्लादेश चावल, गेहूं, प्याज, लहसुन, चीनी, कपास, अनाज, रिफाइंड पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक और स्टील जैसी अलग-अलग जरूरी चीजों के लिए निर्भर है। 2022-23 में भारत और बांग्लादेश के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 16 बिलियन डॉलर था, इसमें बांग्लादेश का निर्यात करीब 2 बिलियन डॉलर था।

वहीं बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग, जो कि कपड़ा उद्योग बर्बाद हो जाएगा जिसका



देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 11 प्रतिशत का योगदान देता है। विडंबना यह है कि देश का कपड़ा उद्योग भी भारत पर बहुत अधिक निर्भर है, जो अपने कुल कपास उत्पादन का 35 प्रतिशत बांग्लादेश को निर्यात करता है। अगर भारत ये आयात रोक दे तब बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग बर्बाद हो जाएगा जिसका

बांग्लादेश के सकल घरेलू उत्पाद पर प्रतिकूल प्रभाव होगा, मुद्रास्फीति बेकाबू होगी और बेरोजगारी तेजी से बढ़ेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी।

रिपोर्ट में बताया गया है कि हसीना के सत्ता से हटने के बाद से बांग्लादेश को 2 लाख करोड़ रूपए का नुकसान हुआ है, इस कारण देश की जीडीपी वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत से

घटकर 5 प्रतिशत से भी कम हो गई है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय में भी तेजी से गिरावट देखी गई है और बढ़ती महंगाई ने स्थिति को बेकाबू कर दिया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी बांग्लादेश भारत पर निर्भर है। दोनों देश 4,367 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं और व्यापार के अलावा भारत ने पिछले 8 सालों में बांग्लादेश को 8 बिलियन डॉलर की सहायता दी है।

बंद होने के कगार पर हैं ये कंपनियां

बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है साथ ही कई टॉप ब्रांड्स अपने कपड़ों को बनाते हैं। ये इंडस्ट्री कथित तौर पर भारी घाटे का सामना कर रही है और कई कंपनियां बिगड़ती कानून व्यवस्था और देश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के कारण अपने ऑपरेशन बंद करने के कगार पर हैं।

डल्लेवाल के मामले में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिर फटकार, मामले को बिगाड़ने की कोशिश



नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के मामले में पंजाब सरकार को फिर फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मान सत्कार के अधिकारी और कुछ किसान नेता मौडिया में गलत धारणा फैला रहे हैं कि किसान नेता डल्लेवाल का अनशन खत्म करने की कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की पीठ ने बताया कि वह स्पष्ट करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी डल्लेवाल का अनशन खत्म करने का निर्देश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सिर्फ उनकी सेहत को लेकर चिंतित है और उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करती है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि कोर्ट ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन ऐसा लगता

है कि पंजाब सरकार के अधिकारी और कुछ किसान नेता जमीनी स्तर पर स्थिति को और जटिल बनाने की कोशिश में लगे हैं। पीठ ने कहा, 'हमें डल्लेवाल के प्रति कुछ किसान नेताओं की सद्भावना को परखने की जरूरत है।' पीठ ने कहा कि चूंकि पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक मामले में डिजिटल माध्यम से पेश हो रहे हैं इसलिए उम्मीद है कि अदालत का संदेश निचले स्तर तक जाएगा। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से हलफनामा दखिल करने को कहा जिसमें यह बताया गया हो कि 20 दिसंबर के उसके आदेश का कितना पालन किया गया है। इस आदेश में कोर्ट ने पंजाब सरकार को डल्लेवाल को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।

वहीं पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने स्थिति को जटिल बनाने के किसी भी कोशिश से इंकार किया है। सिंह ने कहा है कि डल्लेवाल को अपना अनशन खत्म किए बिना चिकित्सा सहायता लेने के लिए मनाने के प्रयास हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए छह जनवरी की तारीख तय की है।

आम आदमी पार्टी ने सत्ता में एक दशक रहने के बाद भी कोई वादा पूरा नहीं किया: भाजपा



नई दिल्ली (एजेंसी)। भाजपा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता में एक दशक रहने के बाद भी कोई वादा पूरा नहीं किया है। भाजपा ने बुधवार को आम आदमी पार्टी और उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर अपना हमला तेज करते हुए उन पर दिल्ली के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता तथा सांसद सांसद सुश्रुति त्रिवेदी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि आप पार्टी यह विचार लेकर आई कि हम नई राजनीति ला रहे हैं। त्रिवेदी ने कहा कि आप किंगडम की तरह रंग बदलती रही। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से झूठे वादे कर रहे हैं। आप नेता जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। मोहल्ले क्लॉनिक में भ्रष्टाचार उजागर हुआ। अब केजरीवाल को जनता समझ चुकी है।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने बिजली दरें कम करने, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, शिक्षा प्रणाली में सुधार करने, स्वास्थ्य सेवा बढ़ाने, स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने, लैंडफिल को हटाने, महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देने, झुग्गीबासियों के लिए आवास



की पेशकश करने और यमुना को साफ करने का वादा किया था। हालांकि, इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने असुविधा बिजली तारों से राहत दिलाने का वादा किया। उन्होंने वादा किया था कि वह कूड़े के ढेर साफ करेंगे। हालांकि, बताया जा रहा है कि दिल्ली में कूड़े के ढेरों की ऊंचाई 8 मीटर तक बढ़ गई है।

त्रिवेदी ने केजरीवाल की दस प्रतिबद्धताओं का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि सत्ता में एक दशक रहने के बाद भी उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक विचित्र संवैधानिक उदाहरण भी 2024 में देश ने देखा। जब जेल से रहकर किसी मुख्यमंत्री ने सरकार को चलाया। भाजपा नेता ने कहा कि केजरीवाल पर आरोप लगा और उन्हें जेल जाना

पड़ा। हालांकि केजरीवाल जेल जाने वाले पहले मुख्यमंत्री नहीं हैं। इसके पहले भी हेमंत सोरेन, मधुकोड़ा, लालू प्रसाद यादव, जयललिता, करुणानिधि ये सब भी पद पर रहते हुए जेल गए। परंतु लालू प्रसाद यादव ने इतनी मर्यादा रखी थी कि उन्होंने पद छोड़ दिया था। लेकिन 2024 एक ऐसा विस्मयकारी और विचित्र उदाहरण देश को मिला कि

जिन्होंने (केजरीवाल ने) जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा।

त्रिवेदी ने कहा कि आप पार्टी यह विचार लेकर आई कि हम नई राजनीति ला रहे हैं। आज की राजनीति में सभी राजनीतिक दलों के बीच सबसे बड़ी चुनौती विश्वसनीयता का संकट था। उन्होंने कहा कि आम जनता के बीच यह धारणा बन गई थी कि राजनेता जो उपदेश देते हैं, उस पर अमल नहीं करते। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए ने इस धारणा को बदला और राजनीति में विश्वसनीयता स्थापित की। दूसरी ओर, आप विपरीत चरम का प्रतिनिधित्व करती है, जहां वे हमेशा अपने वादों को पूरा करने में विफल रहते हैं।

अजमेर शरीफ पर पीएम मोदी की ओर से चादर चढ़ाएंगे केंद्रीय मंत्री रिजिजू, हिंदू सेना ने किया विरोध

—पीएमओ को खत लिखकर अपील की मामला अभी अदालत में लंबित

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 11वां बार अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाएंगे। उनकी ओर से केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू 4 जनवरी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाएंगे। इस बीच हिंदू सेना ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने का विरोध किया है। ये दरगाह असल में संकट मोचन महादेव मंदिर है। संगठन के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने पीएमओ को प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखकर मांग की है कि दरगाह में पीएम की ओर से चादर चढ़ाने के कार्यक्रम को तबतक के लिए सस्पेंड किया जाए जबतक कि दरगाह-मंदिर का मामला अदालत में लंबित है।

अजमेर शरीफ में सालाना उर्स 28 दिसंबर से शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार भी दरगाह पर चादर भेजी थी जिसका रंग



भगावा था। तब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने पीएम की ओर से दरगाह पर चादर चढ़ाई थी। उससे पहले तब के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से चादर चढ़ाने जाते थे। इस बार केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरन रिजिजू पीएम की तरफ से चादर लेकर अजमेर शरीफ जाएंगे। वह दरगाह की वेबसाइट और गरीब नवाज एप की

लॉन्चिंग करने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने का हिंदू

सेना ने विरोध किया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुप्ता ने पीएमओ को खत लिखकर अपील की है कि पीएम ऐसा न करें। वे संकट मोचन महादेव मंदिर बनाम अजमेर दरगाह ख्वाजा साहेब केस में याचिकाकर्ता हैं और मामला अजमेर वेस्ट हिट्टरट कोर्ट में लंबित है। उन्होंने दावा किया है कि इस मामले में उन्होंने कोर्ट में इस बात के पर्याप्त सबूत पेश किए हैं कि अजमेर शरीफ में प्राचीन हिंदू शिव मंदिर मौजूद है, जिसका निर्माण चौहान वंश ने किया था। इस मामले में उन्होंने समूचे अजमेर दरगाह शरीफ परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की मांग की है।

आतंकी साधु, पुजारी, अघोरी और गेरुआ वस्त्र धारण कर मेला में प्रवेश कर सकते

—इंटेलिजेंस ब्यूरो ने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भेजी गोपनीय रिपोर्ट

प्रयागराज (एजेंसी)। कुछ आतंकी संगठनों ने प्रयागराज महाकुंभ-2025 को टारगेट करने की कोशिश में है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने यूपी के गृह मंत्रालय को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकी, प्रॉक्सि नाम से महाकुंभ को टारगेट कर सकते हैं। उन्होंने अपने स्लीपर सेल को सक्रिय करने का काम भी शुरू कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट में

दावा है कि आतंकी साधु, पुजारी, अघोरी और गेरुआ वस्त्र धारण कर मेले में प्रवेश कर सकते हैं। इस कारण महाकुंभ में सीक्रेट पुलिसकर्मियों को साधुओं के वेश में तैनात किया जा रहा है, ताकि वे मेल क्षेत्र में हर गतिविधियों पर नजर रख सकें। ये कुंभ मेले में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर, अखाड़ा के पंखलों में और संगम तट पर तैनात रहने वाले हैं।

एटीएस से लेकर एनआईए तक सक्रिय रिपोर्ट को गंभीरता से लेकर यूपी गृहमंत्रालय ने अपने सभी विंग को सक्रिय कर दिया है। कुंभ मेला में बम डिस्पोजल स्कॉड और एनआईए की टीमों काम कर रही हैं। इस अलर्ट के बाद मेला क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों की जांच शुरू हो गई है।

हर एंटी पॉइंट पर रजिस्टर लेकर पुलिसकर्मী खड़े हैं। गाड़ी से मेले में आने वालों के नाम, पता व मोबाइल नंबर दर्ज हो रहे हैं। आधार कार्ड से उनका मिलान हो रहा है।

जिन गाड़ियों पर संदेह हो रहा है, उनकी पहचान जांच हो रही है। संदिग्ध गाड़ियों और लोगों की तस्वीरें खींचकर उनका मिलान पुलिस के पास मौजूद डेटाबेस से किया जा रहा है। इसके अलावा एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम से मेले की सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस डिपार्टमेंट और साइबर सेल ने 6 जनार से ज्यादा सोशल मीडिया प्रोफाइल सचं किए हैं।

नई दिल्ली। यमन में फांसी की सजा पा चुकी भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को लेकर ईरानी सरकार की तरफ से राहत भरी खबर आई है। ईरान सरकार से जुड़े हुए सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ईरान इस मामले को यमन सरकार के समक्ष उठाएगा। सूत्रों का कहना है कि ईरान सरकार ने मामले पर हरसंभव मदद का भरोसा दिया है। दरअसल यमन के राष्ट्रपति मोहम्मद अल-अलीमी ने दो दिन पहले ही यमन की जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया को फांसी की सजा की मंजूरी दी थी। यमन कोर्ट ने भारतीय महिला नर्स निमिषा को हत्या का दोषी मनाकर फांसी की सजा सुनाई थी, जिस पर वकील के राष्ट्रपति ने मुहर लगाई थी। निमिषा 2017 से यमन

भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को लेकर ईरानी सरकार ने दिया भरोसा, यमन सरकार से बात होगी



की जेल में बंद है। निमिषा को यमन के नागरिक तलाक एब्दो महदी की हत्या का दोषी माना गया था। निमिषा पर आरोप थे कि उन्होंने महदी के पास जमा अपना पासपोर्ट पाने के लिए उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन दिए लेकिन इन इंजेक्शन की वजह से महदी की मौत हो गई। केरल के एलकड निवासी नर्स निमिषा अपने पति और बेटों के साथ पिछले करीब एक दशक से यमन में काम कर रही थीं। यमन कोर्ट ने भारतीय महिला निमिषा को हत्या का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। इस मामले में दोषी नर्स की मां ने यमन जाने की गुहार लगाकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया था कि महदी ने नर्स को शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया था। उसका पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लिया था।

भरोसा दिया है। दरअसल यमन के राष्ट्रपति मोहम्मद अल-अलीमी ने दो दिन पहले ही यमन की जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया को फांसी की सजा की मंजूरी दी थी। यमन कोर्ट ने भारतीय महिला नर्स निमिषा को हत्या का दोषी मनाकर फांसी की सजा सुनाई थी, जिस पर वकील के राष्ट्रपति ने मुहर लगाई थी। निमिषा 2017 से यमन

की जेल में बंद है। निमिषा को यमन के नागरिक तलाक एब्दो महदी की हत्या का दोषी माना गया था। निमिषा पर आरोप थे कि उन्होंने महदी के पास जमा अपना पासपोर्ट पाने के लिए उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन दिए लेकिन इन इंजेक्शन की वजह से महदी की मौत हो गई। केरल के एलकड निवासी नर्स निमिषा अपने पति और बेटों के साथ पिछले करीब एक दशक से यमन में काम कर रही थीं। यमन कोर्ट ने भारतीय महिला निमिषा को हत्या का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। इस मामले में दोषी नर्स की मां ने यमन जाने की गुहार लगाकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया था कि महदी ने नर्स को शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया था। उसका पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लिया था।

स्मारक बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

स्मारक का निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की ओर से किया जाएगा। इसके लिए ट्रस्ट और विभाग के बीच एक एमओयू होगा। बता दें कि 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार की कैबिनेट एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके तहत राष्ट्रीय स्मृति स्थल के नाम से समाधिस्थलों के लिए अलग जगह आवंटन का फैसला हुआ था। यह तय हुआ था कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति जैसे पदों पर रहे नेताओं की समाधिस्थलों राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर बनाई जाए। माना जा रहा है कि मनमोहन सिंह के स्मारक को भी राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर स्थापित के भीतर ही बनाया जा सकता है। यहाँ पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का भी स्मारक बनाया गया है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर सीरीज का अंतिम टेस्ट आज से

सिडनी (एजेंसी)। भारतीय टीम शुक्रवार को यहां मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के अंतिम मैच में उतरेगी। भारतीय टीम का लक्ष्य इस मैच को जीतकर सीरीज में बराबरी हासिल करने के साथ ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी अपनी संभावनाओं को बनाये रखना रहेगा। भारतीय टीम इस मैच में हारी तो वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ से बाहर हो जाएगी। भारतीय टीम का जिस प्रकार का प्रदर्शन अब तक रहा है उससे उम्माकना यहां जीत दर्ज करना बेहद कठिन नजर आत है। इस मैच को लेकर अभी तक अंतिम ग्यारह भी तय नहीं है यहां तक कि ये भी नहीं कहा जा सकता कि इसमें कप्तान रोहित शर्मा को अंतिम ग्यारह में जगह मिलेगी या नहीं। इस मैच में शुभमन गिल की वापसी हो सकती है पिछले मैच में वह बाहर थे। शुभमन नेट्स पर अभ्यास करते दिखे। इसके अलावा युवा ध्रुव जुरेल भी अभ्यास कर रहे थे ऐसे में ये

भी हो सकता है कि रोहित को अंतिम ग्यारह में जगह न भी मिले। रोहित अब तक इस सीरीज में असफल रहे हैं और तीन मैचों में केवल 31 रन ही बना पाये हैं। रोहित के अलावा अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली को भी इस मैच में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। विराट इस सीरीज में एक शतक को छोड़ दे तो बाकि सभी पारियों में असफल रहे हैं। भारत पहली पारी में रन बनाने के लिए संघर्ष करता दिखा है। उनकी 22.40 की औसत एक सीजन में उनका सातवां सबसे कम है। हालांकि सिडनी एक ऐसा जगह है जहां भारतीय टीम का रिकार्ड अच्छा रहा है। सिडनी का मैदान अब बल्लेबाजी के अनुरूप नहीं रह गया है। लेकिन यहां पर अभी भी 34.85 का गेंदबाजी औसत है जो अन्य मैदानों से काफी बेहतर है। यही एक कारण हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच के लिए गेंदबाजी को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। इसी कारण उसने जखान फार्म से संघर्ष कर रहे मिचेल



मार्शा की जगह बो वेबस्टर को शामिल किया है। भारतीय टीम को इस मैच में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और नीतीश कुमार रेड्डी से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। ऋषभ पंत को भी इस मैच में बड़ा स्कोर बनाना होगा। पिछले मैच में वह विकेट पर जमने के बाद लापरवाही से शांट

टीम

ऑस्ट्रेलिया : उस्मान ख्वाजा, सैम कॉन्स्टान, मार्नस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ, ट्रैविंस हेड, बो वेबस्टर, एलेक्स कैरी, पैट कर्मिच (कप्तान), मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलेंड, नाथन लियोन

भारत (संभावित): रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा/हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।

खेलकर गुंवा बैठे थे। वहीं गेंदबाजी की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह पर रहेगी। चोटिल होने के कारण इस मैच में आकाशदीप सिंह नहीं खेलेंगे। ऐसे में उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा या हर्षित राणा में से किसी एक को शामिल किया जा सकता है।

ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं जानी चाहियें : गंभीर

बार्सिलोना (एजेंसी)।

मेलबर्न (इंपैम्प)। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने सिडनी टेस्ट से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ड्रेसिंग रूम की बातें यहीं तक सीमित रहनी चाहिए। उनका बाहर जाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम में तनाव की बातें गलत है। गंभीर ने ये बात इसलिए कही क्योंकि टीम में गुटबाजी बातों को लेकर विवाद उठ था। ये भी कहा जा रहा था कि टीम के कुछ खिलाड़ी पहले टेस्ट में भी जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाये जाने के खिलाफ थे। इसी कारण मेलबर्न टेस्ट में हार के बाद गंभीर ने खिलाड़ियों को कड़ी फटकार लगायी थी। तब गंभीर ने सीनियर खिलाड़ियों पर भी जमकर निशाना साधा था। गंभीर ने कहा था कि अब उन्हें टीम की योजना के अनुसार काम करना होगा।

गंभीर ने टीम में गुटबाजी के सवाल को कह कर कोच और खिलाड़ियों के बीच जो बातें होती हैं उन्हें ड्रेसिंग रूम में ही रहनी चाहिए। इस प्रकार की बातें बाहर आने से बेवजह विवाद होते हैं। साथ ही कहा कि जब तक ड्रेसिंग रूम में ईमानदार लोग मौजूद हैं तब तक भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में रहेगा। कोच ने कहा कि टीम में बने रहना केवल प्रदर्शन पर आधारित होता है। साथ ही कहा कि अगर किसी खिलाड़ी से व्यक्तिगत तौर पर बात होती है तो उसे दोनों के बीच में ही रहनी



चाहिए। ड्रेसिंग रूम में तनाव की बातें नहीं रहनी हैं।

गंभीर ने भारतीय ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से कहा कि अब बहुत हो गया। खिलाड़ियों को टीम की योजना के अनुसार चलना होगा। कोच ने टीम की योजना को सही तरीके से अमल में नहीं लाने के लिए नाराजगी जतायी। मेलबर्न में भारतीय टीम के अनुभवी खिलाड़ियों ने लापरवाही में विकेट खो दिये। गंभीर ने खिलाड़ियों से कहा कि उन्होंने उन्हें अपनी मर्जी से खेलने की अजादी दी थी लेकिन अब वह स्वयं टीम के खेलने के तरीके का फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी उनके मैच के पहले बनाए गए प्लान को अमल में नहीं लाएंगे उन्हें टीम से बाहर जाना होगा।

गंभीर ने अंतिम टेस्ट से पहले कहा, 'यहां टीम पहले की भावना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। खिलाड़ी अपना परिपक्व गेम खेल सकते हैं, लेकिन टीम स्पेक्ट्रम में व्यक्तिगत खिलाड़ी सिर्फ अपना योगदान देते हैं।' गंभीर ने कहा कि सिडनी में पिच देखकर ही अंतिम ग्यारह तय होगी।

रोहित का कप्तान होने के कारण अंतिम टेस्ट में भी खेलना तय: क्लार्क



सिडनी (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर खराब बल्लेबाजी के लिए निशाना साधा है। क्लार्क के अनुसार रोहित कप्तान होने के कारण ही सिडनी में पांचवे टेस्ट में भी खेलेंगे हालांकि इस सीरीज में वह रन बनाने में विफल रहे हैं। क्लार्क ने तंज करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि जब वह चढ़ते तभी संभल जाते हैं। भारतीय बोर्ड उन्हें हटाये ऐसा मुझे नहीं लगता। हालांकि कप्तान होने के कारण उनपर दबाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में अब तक तीसरे टेस्ट मैच खेले हैं पर इसमें कोई अहम पारी नहीं खेली है।

क्लार्क ने कहा कि कुछ खिलाड़ियों के लिए टीम में बने रहने कप्तानी सहायक होती

है, जबकि अन्य के लिए नहीं। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि वह सिडनी में खेलेंगे। मुझे नहीं लगता कि उन्हें टीम से बाहर किया जाएगा। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने यह अधिकार हासिल किया है और वह कप्तान हैं और इसके कारण उन्हें कुछ सुविधाएं मिलना तय है। उन्होंने कहा कि हालांकि उनके आंकड़े बहुत अच्छे नहीं हैं।

क्लार्क ने कहा कि मुझे नहीं पता कि रोहित कप्तानी के लिहाज से कैसा महसूस करते हैं। अभी वह दूसरे बच्चे के पिता बन हैं। मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से सिडनी में खेलेंगे। रोहित का कप्तान के तौर पर औसत 30.58 है लेकिन इससे पहले उन्होंने 46.87 की औसत से रन बनाए थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के ही एक अन्य पूर्व कप्तान आरोन फिच ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए चिंताजनक बात यह है कि पक्ष में पहले टेस्ट में बुमराह की कप्तानी में भारतीय टीम को प्रदर्शन कितना अच्छा रहा पर रोहित के वापस आने के बाद से टीम लय में नहीं दिखती है। रोहित अब भी एक महान खिलाड़ी हैं, उन्हें खेलते हुए देखना शानदार लगता है और मुझे उम्मीद है कि वह कुछ रन बनाएंगे। क्लार्क का ये भी मानना है भारतीय टीम प्रबंधन को युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को बल्लेबाजी के लिए ऊपरी क्रम में भेजना चाहिये क्योंकि वह काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं।

मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को ध्यानचंद्र और 32 को अर्जुन अवार्ड

नई दिल्ली (एजेंसी)। युवा एवं खेल मंत्रालय ने 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस बार के मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों की सूची में कई बड़े और चर्चित नाम शामिल हैं। इनमें ओलंपिक डबल मेडलिस्ट मनु भाकर, शतरंज विश्व चैंपियन डी गुकेश, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार शामिल हैं। सम्मान समारोह 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में दोपहर 11 बजे आयोजित किया जाएगा।

खेल रत्न विजेताओं की गौरवगाथा

* मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में शूटिंग में दो पदक जीतकर इतिहास रचा। वह एक ही ओलंपिक में दो अलग-अलग इवेंट्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनीं।

* डी गुकेश ने शतरंज में एक नया अध्याय लिखा। वह महज 18 साल की उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। उनकी इस ऐतिहासिक जीत ने भारत का नाम वैश्विक मंच पर ऊंचा किया।

* हरमनप्रीत सिंह ने अपनी कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम को ब्राँज मेडल दिलाया। यह लगातार दूसरा अक्सर था जब भारत ने ओलंपिक्स में हॉकी में ब्राँज मेडल जीत लिया।

* पैरालंपिक हाई-जम्पर प्रवीण कुमार ने टी64 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित



किया। उनकी यह जीत पैरालंपिक खेलों में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाती है।

अन्य सम्मान और पुरस्कार

खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार के लिए 32 खिलाड़ियों को चुना है, जिनमें 17 पौरुष एथलीट शामिल हैं। इन खिलाड़ियों को भी 17 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा, 3 कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जाएगा। लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए पैरालंपिक में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता मुस्लीकांत राजगौर पेंडकर को सम्मानित

किया जाएगा। उन्होंने साल 1972 में जर्मनी के हीडलबर्ग में 50 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था।

कोविंग में योगदान

पूर्व निशानेबाज और कोच दीपाली देशपांडे को भी द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस पर उन्होंने कहा, 'मैं बहुत खुश हूँ। यह सिर्फ मेरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि उन निशानेबाजों की उपलब्धि है, जिन्होंने उक्त प्रदर्शन किया।'

ऑस्ट्रेलिया की नजरें सिडनी टेस्ट जीतने पर, कर्मिस ने कहा- बुमराह का सामना करना कठिन है

सिडनी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कर्मिस ने कहा कि श्रृंखला में 2-1 से बढ़त बनाने के बावजूद भारत के खिलाफ शुक्रवार से शुरू हो रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी मैच में उनकी टीम की ऊर्जा में कोई कमी नहीं आएगी। ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्सिंग डे टेस्ट



184 रन से जीतकर 2014-15 के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने की ओर कदम बढ़ा दिया है। कर्मिस ने कहा, 'श्रृंखला में आगे होना अच्छा रहता है। आप हर टेस्ट में जीतते हैं और यहां भी कुछ अलग नहीं है। पिछले तीन टेस्ट में टीम के प्रदर्शन से मैं बहुत खुश हूँ। हमने दिखा दिया कि हम जीत के प्रबल दावेदार हैं और इस सप्ताह भी हमारा लक्ष्य जीतना ही है।' उन्होंने स्वीकार किया कि टीम के सामने कुछ मुसल हैं। उन्होंने कहा, 'इसमें कोई शक नहीं कि कुछ मुकों पर हम और रन बनाना चाहते थे। मेलबर्न में पिछले टेस्ट में हमें 400 से 500 रन की बढ़त लेनी चाहिए थी। हम इतनी अच्छी स्थिति में थे। लेकिन यही टेस्ट क्रिकेट है।'

पिच पर बोले कर्मिस - कर्मिस ने कहा कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच पारंपरिक पिच से अलग है जिस पर स्पिनरों और बल्लेबाजों को मदद मिलती है। उन्होंने कहा, 'वह एसीसीजी की पारंपरिक पिच से अलग है। इस साल यहां शेफील्ड शीलड के दो मैच अच्छे रहे और टीमों में खुशी थी। इससे गेंदबाजों को मदद मिलेगी और बल्लेबाज भी रन बना सकेंगे। कुछ समय इस पर बल्लेबाजी आसान होगी तो आखिर में यह स्पिनरों की मददगार रहेगी। मैंने यहां कुछ टेस्ट खेले हैं लेकिन बाकी वनडे ही खेलें हैं तो मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ।'

कुसल परेरा का शतक, श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को सात रनों से हराया

नेल्सन (न्यूजीलैंड) (एजेंसी)। कुसल परेरा (101) की तुफानी शतकीय, चरित असलंका (तीन विकेट) और चार्लिन हंसरंगा (दो विकेट) की शानदार गेंदबाजी के रम पर श्रीलंका ने गुरुवार को तीसरे टी-20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को सात रन से हरा दिया है। हालांकि न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से जीती। कुसल परेरा को उनकी तुफानी शतकीय पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' से तथा सीरीज में आठ विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के गेंदबाज जेकब डफी 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' से नवाजा गया।

श्रीलंका के 218 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड के लिए टिम रॉबिन्सन और रचिन रंविंद्र की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 81 रन जोड़े। आठवें ओवर में बी फर्नांडो ने टिम रॉबिन्सन (37) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद चरित असलंका ने मार्क चैपमैन (नौ) और ग्लेन फिलिप्स (छह) को आउट कर न्यूजीलैंड को दो झटके दिये। 13वें ओवर में असलंका ने रचिन रंविंद्र को बोलड कर श्रीलंका को चौथी सफलता दिलाई। रचिन रंविंद्र ने 39 गेंदों में पांच चौके और चार छक्के लगाते हुए (69) रनों की पारी खेली।

16वें ओवर में हंसरंगा ने मिचेल हे (आठ) को बोलड कर दिया। इसी ओवर में उन्होंने माइकल ब्रेसवेल (एक) को भी अपना शिकार बना लिया। श्रीलंका के लिये सातवां महत्वपूर्ण विकेट नुवान तुपारा ने डैरिल मिचेल को आउट कर झटका।



डैरिल मिचेल ने 17 गेंदों में एक चौका और चार छक्के लगाते हुए (35) रन बनाये। मिचेल सैंटर (14) और जैकरी फॉक्स (21) रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट पर 211 रन ही बना सकी और सात रन से मुकाबला हार गई। श्रीलंका की ओर से चरित असलंका ने तीन विकेट और चार्लिन हंसरंगा ने दो विकेट लिये। नुवान तुपारा और बी फर्नांडो ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले आज यहां न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 24 के स्कोर

इस पूर्व खिलाड़ी ने की भविष्यवाणी, कहा- भारत नहीं, पाकिस्तान जीतेगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब



नई दिल्ली। फरवरी-मार्च में पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा। ये टूर्नामेंट हाइड्रॉड मैडल से खेला जाएगा जहां टीम इंडिया के सभी मैच यूएई में खेले जाएंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने टूर्नामेंट को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने उस टीम का नाम बताया है जो सेमीफाइनल में जगह बनाएगी और खिताब जीतने की दावेदार भी हो सकती है। बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 19 फरवरी से होगी। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 23 फरवरी को होगा। वहीं 49 वर्षीय शोएब अख्तर ने कहा कि, मुझे पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। पाकिस्तान टॉप 4 में जगह जकड़ बनाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वह चाहते हैं कि फाइनल जमाने टीम में वापसी करें और बाबर आजम के लिये ये साल बेहतरीन हो। अख्तर ने बाबर आजम की अहम भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि, बाबर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए काफी अहम साबित होंगे। टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और मुझे यकीन है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी टीम अच्छा खेलेगी। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत सकता है। उन्होंने कहा कि, पाकिस्तान अपने मैच होम ग्राउंड पर खेलेगा, इसलिए खिताब जीतने का अच्छा मौका है। 2017 में भारत को हराकर पाकिस्तान ने ट्रॉफी जीती थी। अब मेजबानी करते हुए खिताब बरकरार रखना चाहिए।

रोहित सिडनी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो खुशी से संन्यास ले लें : शास्त्री

मुम्बई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा कि अगर कप्तान रोहित शर्मा अंतिम टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें खुशी से खेल को अलविदा कह देना चाहिये। सिडनी में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के अंतिम टेस्ट की पूर्व संख्या पर रोहित के भविष्य को लेकर अटकलें तेज होने के बीच ही शास्त्री ने ये बातें कहीं। वहीं मुख्य कोच गौतम गंभीर ने मैच से पहले कहा कि पिच को देखने के बाद ही अंतिम ग्यारह का फैसला किया जाएगा, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि रोहित का खेलना तय है या नहीं। इस सीरीज में रोहित ने तीन मैचों में 6.2 की औसत से केवल 31 रन बनाए हैं।

उन्होंने कहा, वह अपने करियर को लेकर फैसला करते पर अगर वह संन्यास लेते हैं तो मुझे बिल्कुल भी रोहित नहीं होगी। इसका कारण है कि उनकी उम्र बढ़ रही है और उनकी जगह लेने के लिए कई युवा खिलाड़ी तैयार हैं। शुभमन गिल जैसा खिलाड़ी अभी बाहर बैठा है। वहीं यदि रोहित खेलते हैं तो उन्हें शानदार प्रदर्शन करना चाहिए। यदि रोहित के आसपास होता, तो मैं उनसे कहता, 'बस जाओ और धमका करो। बस मैदान पर जाओ और धमका करो।'

शास्त्री ने आईसीसी रिव्यू शो में कहा, 'ठीक वैसे ही जैसे जब आप इस समय जिस तरह से खेलते हैं कोशिश कर रहे होते हैं, वह अच्छा नहीं

लगता। मैदान पर जाओ और विषय पर हमला करो और फिर देखते हैं क्या होता है। उन्हें यह भी लगता है कि रोहित का रेड-बॉल फॉर्म पिछले कुछ महीनों में अपने स्वभाविक खेल को नहीं खेलने के कारण गिरा है, और उन्होंने उनकी स्थिति की तुलना फार्म से बाहर चल रहे ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के संघर्ष से की। 'मुझे लगता है कि जब मैं बाहर से देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वह गेंद पर थोड़ा दूर से आता है। उसके पैर सामान्य रूप से उतने अच्छे से नहीं चलते हैं। अपने चरम पर भी, उसका फुटवर्क न्यूनतम था, लेकिन और भी बहुत कुछ था। वह गेंद को और अधिक था। इस समय, मुझे लगता है कि वह क्रीज पर पकड़ हा है।'





वेत्रिमरन की फिल्म वादिवसल की शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार सूर्या

सूर्या और निर्देशक वेत्रिमरन की बहुप्रतीक्षित परियोजना वादिवसल का इंतजार प्रशंसक कई वर्षों से कर रहे हैं। वहीं, अब निर्माता ने हाल ही में दिए साक्षात्कार में इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां साझा कीं। फिल्म के निर्माता ने वादिवसल पर चर्चा करते हुए कहा कि सूर्या शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं। पहले निर्देशक विदुथलाई भाग 2 के निर्माण में व्यस्त थे। वह फिल्म अब रिलीज हो गई है। जल्द शुरू होगी फिल्म की शूटिंग इसके अलावा निर्माता ने बताया कि इस दौरान फिल्म पर काम लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि फिल्म का एक अहम हिस्सा एनिमेट्रीकल बेल लंदन में अपने आखिरी स्टेज पर है, जिससे यह संभावना है कि फिल्म जल्द ही प्लोर पर आ जाएगी। कुछ समय पहले सूर्या की मुख्य भूमिका वाली फिल्म वादिवसल की घोषणा की गई थी। वेत्रिमरन द्वारा निर्देशित यह फिल्म तमिलनाडु में बेलों को काबू में करने के त्याहार की कहानी पर आधारित है, जो बदले की कहानी भी पेश करेगी।

फिल्म की कहानी

कहानी कथित तौर पर पिच्ची और मरुदन पर केंद्रित है, जो पेरियापट्टी गांव में वार्षिक बेल-वशीकरण उत्सव में भाग लेते हैं। दोनों का लक्ष्य एक वरुन बेल को वश में करना है, जिसने अतीत में पिच्ची के पिता को हराया था, जिससे बदला लेने वाली कहानी की शुरुआत होती है। चूंकि फिल्म काफी समय से प्री-प्रोडक्शन स्टेज में थी, इसलिए रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इसे शायद रोक दिया गया है। हालांकि, निर्देशक ने खुद 2024 में मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि फिल्म को रोक नहीं गया है, बल्कि उनकी अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण इसे टाल दिया गया है।

वेत्रिमरन की विदुथलाई - भाग 2
हाल ही में, निर्देशक वेत्रिमरन ने 20 दिसंबर, 2024 को अपनी फिल्म विदुथलाई-भाग 2 रिलीज की। राजनीतिक बैकग्राउंड पर सेट यह पीरियड ड्राम थ्रिलर दो-भाग वाली फिल्म फंजाइजी की दूसरी किस्त है। यह फिल्म एक पुलिस कांस्टेबल की यात्रा को दिखाती है, जो एक अलगाववादी समूह के नेता के साथ संघर्ष में उलझ जाता है। सौरी और विजय सेतुपति की मुख्य भूमिकाओं वाली इस फिल्म में गौतम वासुदेव मेनन, मंजू वारियर, किशोर, भवानी सेरे, राजीव मेनन, इलावरसु और बालाजी शक्तिवेल भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।



'धूम' फिल्म के अली से कनेक्ट करती हैं अनन्या पांडे, प्यार को लेकर कही मन की बात

अनन्या पांडे का नाम इन दिनों मॉडल वॉकर ब्लैको से जोड़ा जा रहा है। दोनों को अनंत अंबानी की शादी में साथ देखा गया था। अनन्या ने अपने इस नए रिश्ते को खुलकर स्वीकार तो नहीं किया है लेकिन हाल ही में अभिनेत्री ने प्यार को लेकर अपना नजरिया बताया।

प्यार में 'धूम' के अली जैसा करती हैं महसूस

हाल ही में एक इंटरव्यू में अनन्या पांडे ने अपनी लव लाइफ पर बात की। एक्ट्रेस का कहना है कि जब वह प्यार में होती है तो सामने वाले से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाती है। वह बिल्कुल 'धूम' फिल्म के अली जैसा बिहेव करती है।

परिवार-शादी के बारे में सोचती हैं


फिल्म 'धूम' में जब अली यानी उदय चोपड़ा के किरदार को प्यार होता है, तो चंद पलों में ही वह शादी और परिवार बनाने के बारे में सोचने लगती है। अनन्या भी ऐसा ही सोचती हैं, जब वह प्यार में होती हैं। यही कारण है कि वह फिल्म 'धूम' के

कबीर बहिया से अफेयर की अफवाहों के बीच बोली कृति सेनन

कुछ दिन पहले कृति सेनन को बिजनेस मैगजिन कबीर बहिया के साथ क्रिसमस सेलिब्रिटी करते हुए देखा गया। सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें कृति ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी साझा कीं। हाल ही में कृति एक पॉडकास्ट पर नजर आईं। कृति सेनन से पहले ऋश के बारे में सवाल किया? तो वह बोली- 'प्यार को लेकर मैं सिर्फ अपनी सुनती हूँ, इस मामले में मैं किसी की नहीं सुनती हूँ।' वह पॉडकास्ट में आगे अपने पहले स्कूल ऋश के बारे में भी बताती हैं। कृति सेनन बताती हैं कि जब ग्यारहवीं क्लास में रही होंगी, तब उन्हें पहला ऋश हुआ था। वह लड़का काफी लंबा था, उस पर अकसर ही कृति की नजर चली जाती थी। दोनों एक-दूसरे को पसंद करते थे। वह लड़का कृति की मम्मी के फोन पर कॉल किया करता था। इस बात को मम्मी से छुपाना कृति के लिए काफी मुश्किल होता था। अपने पहले ऋश को याद करके, कृति सेनन पॉडकास्ट पर काफी मुस्कुरा भी रही थीं। आगे चलकर कृति का पहले ऋश के साथ रिलेशनशिप टूट गया। पॉडकास्ट में कृति ने यह भी बताया कि ब्रेकअप होने पर वह रोई भी थी। बाद में उन्हें अहसास हुआ कि यह प्यार नहीं था, बस एक ऋश जैसा था। कृति सेनन ने इस साल तीन फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया', 'वरु' और 'दो पत्नी' शामिल हैं। फिल्म 'दो पत्नी' में एक्टिंग करने के साथ कृति सेनन ने इसे प्रोड्यूस भी किया। आगे भी वह अपने प्रोडक्शन हाउस तले अलग-अलग तरह की फिल्मों प्रोड्यूस करना चाहती हैं।

बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों की कमी पर प्रीति ने जताई चिंता

बॉलीवुड में अच्छी रोमांटिक फिल्में कम बन रही हैं। हाल ही में अभिनेत्री प्रीति जिंटा इस बात से सहमत होती नजर आईं दरअसल प्रीति जिंटा ने एक्स (पूर्व में टिवटर) पर फेंस के साथ एक बातचीत सेशन रखा। इस दौर उन्होंने अपने करियर और सिनेमा पर बात की। उन्होंने आज के दौरान में इंस्ट्री में रोमांटिक फिल्मों की कमी पर भी खुलकर बात की। साथ ही कहा कि उन्हें अब भी उम्मीद है कि शायद कुछ बेहतर आइडिया आए। एक्स पर एक यूजर ने प्रीति जिंटा को मैसेज लिखा, मुझे लगता है कि बॉलीवुड में रोमांस, रोमांस के किंग कहे जाने वाले निर्माता यश चोपड़ा के साथ ही खत्म हो गया, क्या आज के समय में हमें बॉलीवुड में अच्छी रोमांटिक फिल्मों देखने को मिल सकती हैं? यूजर के सवाल पर प्रीति ने लिखा, मेरा भी यही मानना है। हालांकि, उम्मीद है कि कुछ अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जाएं और कुछ नए आइडिया कोई ऐसा शर्क्स लेकर आए, जिसका दिल सही जगह पर है। मैं भी आपकी तरह इंतजार ही कर रही हूँ। इसके अलावा अभिनेत्री ने अपनी आगामी फिल्म पर भी बात की। एक यूजर ने लिखा, आप किसी नई फिल्म में काम कर रही हैं? अगर ऐसा हो तो आपको बड़े परदे पर देखा दिलचस्प होगा। आप 90 के दशक की हमारी पसंदीदा अदाकारा हैं। इस पर प्रीति जिंटा ने लिखा, बहुत शुक्रिया! मेरी नई फिल्म है लाहौर 1947, जो अगले साल रिलीज होगी। लंबे वक्त बाद कमेक प्रीति जिंटा ने साल 1998 में मणिरत्नम की फिल्म दिल से के जरिए डेब्यू किया था। इसके बाद वे कोई मिल गया, चोरी चोरी छुपके छुपके, दिल चाहता है, वीर जारा जैसी कई चर्चित फिल्मों में नजर आईं। अदाकारा जिन गुडइनफ से शादी के बाद विदेश में बस गई हैं।



एक्शन में बेंचमार्क साबित होगी 'फतेह'

एक्टर सोनू सूद अपकमिंग फिल्म फतेह के जरिए डायरेक्शन में डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। यहां तक कि लीड रोल में भी सोनू ही नजर आएंगे। फिल्म 10 जनवरी, 2025 को रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज से पहले सोनू सूद ने दैनिक भास्कर से बातचीत की है। सोनू के मुताबिक, फतेह का एक्शन सीकेंस इंस्ट्री में एक नया बेंचमार्क साबित करेगा।

आप पहली बार डायरेक्टर के रोल में नजर आ रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं?

दो-दो साल में खूब मेहनत हुई है। लिखने से लेकर फिल्म के हर बिंदु पर काफी बारीकी से काम किया गया है। मैंने सोच लिया था कि ऐसी एक्शन फिल्म बनाऊंगा जो कभी नहीं बनी हो। हिंदुस्तान भी गर्व से कहे कि ऐसी एक्शन फिल्म पहले कभी नहीं बनी।

क्या आपके लायक फिल्म नहीं बन रही थीं, इसलिए खुद डायरेक्शन में उतरना पड़ा?

कई बार खुद की कहानी खुद के कलम से लिखनी पड़ती है। मैं जैसी फिल्म चाहता था, वह बन नहीं पा रही थी। ऐसा फील हो रहा था कि मैं जो कर सकता हूँ, वह मुझसे कराया नहीं जा रहा। यही सोचकर मैंने खुद ही फिल्म बनाने की जिम्मेदारी उठाई।

आप फिल्मों में डायलॉग्स पर भी काफी इनपुट देते हैं, इसका क्रेडिट क्यों नहीं लेते?

डायलॉग्स के जरिए ही हम सही तौर पर ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते हैं। डायलॉग्स ऐसे होने चाहिए, जो गली-चौराहे के बच्चे भी समझ जाएं और उससे रिलेट कर पाएं। फतेह देखने के बाद आप निजी जीवन में उसके डायलॉग्स बोलते फिरेंगे।

आपने फिल्म के म्यूजिक पर भी काफी ध्यान दिया है, संगीत की समझ कहां से लाते हैं?

म्यूजिक ऐसा होना चाहिए, जो फिल्म की सीकेंस के साथ मैच हो जाए। मैंने फतेह में अरिजीत सिंह, हनी सिंह, विशाल मिश्रा, बी प्रकाश और जुबिन नौटियाल जैसे इस वक्त के सबसे बड़े सिंगर्स से गाने गवाए हैं। फतेह के एक्शन की तुलना इंटरनेशनल फिल्मों से की जा रही है, कुछ लोग जॉन विक से मिला रहे हैं?

मैंने इतने सालों तक एक्शन फिल्मों की हैं, लेकिन हमेशा लगता था कि कुछ मिसिंग है। कई बार सोचता था कि हम आखिर इंटरनेशनल लेवल का एक्शन क्यों नहीं दिखा पाते हैं। शायद प्रोडक्शन कॉस्ट और विजन ही सबसे बड़ा मसला है। मैंने फतेह के लिए एक्शन सीन्स को प्रॉपर डिजाइन किया। साथ ही पेपर पर हर एक्शन सीन्स की डिटेल्स भी की थी। फिल्म में साढ़े तीन मिनट का नॉनस्टॉप एक्शन देखने को मिलेगा। उसमें एक कट नहीं दिखेगा। जुरासिक पार्क, फास्ट एंड फ्यूरियस और केप्टन मार्वेल जैसी बड़ी हॉलीवुड फिल्मों का एक्शन डिजाइन करने वाली टीम को बुलाकर उनसे काम लिया है। एक्शन सीन्स को शूट करने के लिए साउथ अफ्रीका और मैक्सिको से टीम आई थी। मुझे लगता है कि फतेह का एक्शन एक बेंचमार्क साबित करेगा।



रजनी सर ने तारीफ की तो शॉकड हो गई थी

एक्ट्रेस वैधिका कुमार साउथ की सभी भाषाओं के अलावा हिंदी फिल्म में भी काम कर चुकी हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने फिल्मों में अपनी जर्नी को लेकर खास बातचीत की। इस दौरान एक्ट्रेस ने साउथ सिनेमा के सुपर स्टार रजनीकांत से पहली मुलाकात का किस्सा भी शेयर किया। एक्ट्रेस ने बताया कि जब 'कांचना 3' के बाद रजनी सर से मिलीं और रजनी सर ने उनकी एक्टिंग की तारीफ की तो शॉकड हो गईं।

आप मुंबई में पली बढ़ी हैं, फिर साउथ सिनेमा में एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई?

साउथ सिनेमा में मेरी

शुरुआत बिस्कुट के एक एंड से सूर्या के साथ हुई थी। उस एंड के लिए मुंबई की एक एजेंसी ने कास्टिंग की थी। जिसे प्रियदर्शन सर ने डायरेक्ट की थी। उस समय सूर्या सर बहुत बड़े स्टार थे। उनके साथ बहुत ही अच्छे अनुभव रहा है। प्रिय दर्शन सर की मैं बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, उनके साथ भी काम करना बहुत ही कॉफर्टेबल रहा है। वह जमीन से जुड़े इंसान हैं। मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि ऐसे एक्टर और डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। इस एंड के बाद साउथ की फिल्मों में मेरी की जर्नी शुरू हुई थी। अब तक 30 से ज्यादा साउथ की फिल्मों कर चुकी हूँ। पहली फिल्म 'मद्रासी' की शूटिंग के दौरान का कैसा माहौल था? पहले दिन की शूटिंग मुंबई में ही थी। उस समय मुझे तमिल बिल्कुल नहीं आती थी। हिंदी में डायलॉग लिखकर याद कर लेती थी। अभी तो तमिल मेरी मातृ भाषा जैसी हो गई है। तेलुगु भी बोल लेती हूँ। 'मद्रासी' के बाद 'मुनि' रिलीज हुई थी। इस फिल्म को राघव लारेंस ने डायरेक्ट की

थी। यह फिल्म मेरे करियर की टर्निंग पॉइंट फिल्म रही है। यह हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। इसके बाद लारेंस सर ने कांचना, कांचना 2 और कांचना 3 बनाई। मुनि के बाद मैंने कांचना 3 में मैंने भी काम किया था। अब कांचना 4 बनने जा रही है। यह सारी फिल्में 'मुनि' की ही फंजाइजी हैं। आपकी तुलना कई बड़ी एक्ट्रेस से की जाती है, इस कॉम्प्लिमेंट को किस तरह से देखती हैं? बहुत अच्छे लगता है। श्रीदेवी मैम को मैंने हमेशा अपना आइडियल माना है। उनसे एक बार दुबई में मिली भी थी। उनके डांस, परफॉर्मंस और व्यूटी को बहुत पसंद करती हूँ। आज हम उनको बहुत मिस करते हैं। उनकी जैसी इंस्ट्री में बहुत कम लोग हैं। मेरे लिए यह बड़े गर्व की बात है कि लोग मेरी तुलना उनसे करते हैं, लेकिन मैं अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हूँ। किस तरह से इंस्ट्री में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरी चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं से जाने। मैंने अब तक कई चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। मैंने बाला सर के डायरेक्शन में तमिल फिल्म

'परदेसी' की थी। मेरे करियर की यह बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट फिल्म थी। इस फिल्म को लेकर इतना एक्साइटड थी कि शूटिंग के दौरान सो नहीं पाती थी। इस फिल्म में मेरा लुक बहुत ही अलग था। इस फिल्म में मिलने लगी थीं। बॉलीवुड में आपकी एंट्री इमरान हशमी की फिल्म 'द बॉडी' से हुई। हिंदी सिनेमा में इतनी लेट एंट्री क्यों? मैं साउथ में बहुत बिजी थी, इसलिए यहां ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। मुझे ऑफर्स भी मिले, लेकिन डेट्स प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाई। कुछ फिल्मों ऐसी थीं, जिसमें किरदार नहीं पसंद आया था। 'द बॉडी' का जब ऑफर मिला तो इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटड थी। मेरा मानना है कि जब जो होना होता है, तभी होता है। अभी 2025 के लिए कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए बात चल रही है। कुछ अच्छे ही होगा। आप पांच भाषाओं में काम कर चुकी हैं, बैसेस कैसे करती हैं? बैसेस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि

हर भाषा का अपना एक अलग सुर होता है। साउथ की फिल्मों के बाद जब 'द बॉडी' कर रही थी तब हिंदी बोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। जबकि हिंदी बचपन से बोलती आ रही हूँ। अभी तो तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सीख ली हूँ। करियर में अब तक का कोई खूबसूरत कॉम्प्लिमेंट, जो आपके दिल को छू लिया हो? 'कांचना 3' जब बहुत बड़ी हिट हुई थी तब राघव लारेंस सर के साथ रजनी सर (राजनीकांत) से मिलने गई थी। वो ऐसे सुपर स्टार हैं, जो दूसरों को सुपर स्टार जैसा फील कराते हैं। रजनी सर ने मेरी फिल्म 'शिवलिंगा' तीन साल पहले देखी थी। उन्होंने फिल्म के एक-एक सीन के बारे में बताते हुए मेरे एक्टिंग की तारीफ की। मैं शॉकड हो गई थी। वह मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। अभी हाल फिलहाल में साउथ फिल्म इंस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे केस सामने आए हैं। आप का अनुभव कैसा रहा है? मेरे साथ कभी बुरा अनुभव नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि साउथ फिल्म इंस्ट्री में सबलोग ऐसे ही हैं। मेरा मानना है कि कहीं भी अगर किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ऐसे लोग से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। बुरे अनुभव कभी बोल कर नहीं आते हैं। यह कहीं भी हो सकता है।